



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, जुलाई 24—जुलाई 30, 2005, शनिवार/श्रावण 2—श्रावण 8, 1927
No. 31] NEW DELHI, JULY 24—JULY 30, 2005, SATURDAY/SRAVANA 2—SRAVANA 8, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें स्वीकारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 252.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय समूह 'ग' पद (भर्ती) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—अनुसूची में उल्लिखित पदों के पदधारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर ऐसे पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से आमेलित और नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

6. निरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. केयर टेकर	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150- 8000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
11			12		
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन या आमेलन			केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और अभिरक्षण या नयाचार ड्यूटी के क्षेत्र में, सामान्य सफाई, कार्यालय भवन के अनुरक्षण, फरॉश या सफाईवाला के कार्य का पर्यवेक्षण, बैठकों इत्यादि में सहायता करने का अनुभव। टिप्पण : सुरक्षा संगठन में कार्य के अनुभव को वरीयता दी जाएगी		

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा

13				14	
चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—				लागू नहीं होता	
1.	निदेशक (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—अध्यक्ष			
2.	उप सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—सदस्य			
3.	अवर सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—सदस्य			
1	2	3	4	5	6
2. रोकड़िया	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11		12			
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन या आमेलन		केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; टिप्पणी : 5000-8000 रु. का वेतनमान भर्ती नियमों के प्रख्यापन के पश्चात् की गई केन्द्रीय नियुक्तियों के लिए ही लागू होगा। पद को 4000-6000 रु. के स्तर पर भी प्रवर्तित किया जा सकता है। अनुभव : ऐसे व्यक्तियों को बरीयता दी जाएगी जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य संस्थान से रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।			
13				14	
चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—				लागू नहीं होता।	
1.	निदेशक (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—अध्यक्ष			
2.	उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—सदस्य			
3.	अवर सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय)	—सदस्य			
1	2	3	4	5	6
3. स्टॉफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	2* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

12

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/
पुनर्नियोजन/आमेलन द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे पदधारियों से, जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार
ड्राइवर (श्रेणी-II) में छह वर्ष सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे पदधारियों से :—

- जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) में छह वर्ष सेवा की है ; या
- जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;
- जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो;
- मोटर कार यंत्र प्रक्रिया का ज्ञान हो।

13

चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

- निदेशक या उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —अध्यक्ष
- अवर सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य
- अनुभाग अधिकारी (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
4. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	2* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7		8	9	10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

11

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/
पुनर्नियोजन/आमेलन द्वारा

12

प्रोन्नति :

ऐसे पदधारियों से, जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में नौ वर्ष सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे पदधारियों से :—

- जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान में स्टाफ कार ड्राइवर के रूप में नौ वर्ष सेवा की है ; या
- जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;
- जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है;
- मोटर कार यंत्र प्रक्रिया का ज्ञान है।

13

चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

- निदेशक या उप सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —अध्यक्ष
- उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य
- अनुभाग अधिकारी (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
5. स्टाफ कार डाइवर (सामान्य श्रेणी)	6* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 —रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7	8	9	10
लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) मोटर कार यंत्र क्रिया का ज्ञान हो; (iii) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण; और (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे पदाधारी :— (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; और जिनके पास मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (ii) आठवीं स्तर उत्तीर्ण और अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने तथा लिखने की योग्यता है; और (iii) मोटर कार यंत्र प्रक्रिया का ज्ञान है। अनुभव : संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

13	14
चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—	लागू नहीं होता
1. निदेशक या उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —अध्यक्ष	
2. उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य	
3. अनुभाग अधिकारी (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य	

1	2	3	4	5	6
6. सवार हरकारा	4* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	लागू नहीं होता	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

7	8	9	10
लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) मोटर साइकिल/आटोरिक्षा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटर साइकिल/आटोरिक्षा चलाने में दो वर्ष का अनुभव हो; (iii) मोटर साइकिल/आटोरिक्षा यंत्र क्रिया का ज्ञान (पदधारी को यान की छोटी-मोटी त्रुटियों को ठीक करने के योग्य होना चाहिए); (iv) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता है। वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं स्तर उत्तीर्ण; और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(ii) होमगार्ड या नागरिक सुरक्षा कार्य-
कर्ता के रूप में अनुभव।

टिप्पण.—अनुभव संबंधी अर्हता संयुक्त सचिव (प्रशासन), के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संयुक्त सचिव (प्रशासन), की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। तथापि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के ऐसे नियमित रूप से नियुक्त समूह 'घ' कर्मचारियों को अधिमान्यता दी जाएगी जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता पूरी करते हैं। जहां उनमें से कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां सीधी भर्ती की जाएगी।	लागू नहीं होता।
13	14
चयन समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. निदेशक या उप-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —अध्यक्ष	
2. अवर-सचिव (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य	
3. अनुभाग अधिकारी (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय) —सदस्य	

[सं. ए-12012/1/99-प्रशासन]

वाई. पी. सहगल, अवर सचिव

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 15th July, 2005

G.S.R. 252.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the National Security Council Secretariat, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Security Council Secretariat, Group 'C' posts (Recruitment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of the posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified as in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Initial Constitution.**—The incumbents of the posts mentioned in the Schedule who are holding such posts on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been duly absorbed and appointed under the provisions of these rules.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Caretaker	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
11		12			
Deputation or re-employment or absorption.		Officers of the Central Government :— (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre or department; and Experience in the filed of Caretaking or Protocol duty, general cleanliness and upkeep of office building, supervising the work of Farash or Safaiwala, assisting meetings etc. Note : Experience of working in a security organisation will be given preference.			

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition?

Circumstances in which Union Public
Service Commission to be consulted
in making recruitment

13				14	
Selection Committee comprising of :				Not applicable.	
1.	Director (National Security Council Secretariat)	—Chairman			
2.	Deputy Secretary (National Security Council Secretariat)	—Member			
3.	Under Secretary (National Security Council Secretariat)	—Member			
1	2	3	4	5	6
2. Cashier	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5,000-150-8,000	Not applicable	Not applicable
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
11		12			
Deputation or re-employment or absorption			<p>Officers of the Central Government :—</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) 8 years' regular service in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent.</p> <p>Note : The pay scale of Rs. 5000—8000 will be applicable only for fresh appointments made after promulgation of the Recruitment Rules. The post may also be operated at the level of Rs. 4000—6000.</p> <p>Experience :—</p> <p>Those who have undergone Cash and Accounts Training from Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Accounts Service or equivalent will be preferred.</p>		
13				14	
Selection Committee comprising of :				Not applicable.	
1.	Director (National Security Council Secretariat)	—Chairman			
2.	Deputy Secretary (National Security Council Secretariat)	—Member			
3.	Under Secretary (National Security Council Secretariat)	—Member			
1	2	3	4	5	6
3. Staff Car Driver (Grade-I)	2* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4,500-125-7,000	Not applicable	Not applicable
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable

11	12
Promotion failing which by Deputation/ re-employment/absorption	Promotion from : Officials with 6 years' service in the Staff Car Driver (Grade-II) in the scale of Rs. 4000—6000. Deputation or absorption from : Officials of the Central Government/State Government :— (i) Officials with 6 years' service in the Staff Car Driver (Grade-II) in the scale of Rs. 4000—6000; or (ii) holding analogous posts on regular basis; (iii) possessing of a valid driving licence for Motor Car; (iv) knowledge of Motor Car Mechanism.

13	14
Selection Committee Comprising of : 1. Director or Deputy Secretary (National Security Council Secretariat) —Chairman 2. Under Secretary (National Security Council Secretariat) —Member 3. Section Officer (National Security Council Secretariat) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
4. Staff Car Driver (Grade-II)	2* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4,000-100-6,000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
Promotion failing which by Deputation/ re-employment/absorption	Promotion from : Officials with 9 years' service in the Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the scale of Rs. 3050—4590. Deputation or absorption from : Officials of the Central Government/State Government :— (i) 9 years' regular service as Staff Car Driver in the scale of Rs. 3050—4590; or (ii) holding analogous posts on regular basis; (iii) possessing of a valid driving licence for Motor Car; (iv) knowledge of Motor Car Mechanism.

13	14
Selection Committee Comprising of : 1. Director or Deputy Secretary (National Security Council Secretariat) —Chairman 2. Under Secretary (National Security Council Secretariat) —Member 3. Section Officer (National Security Council Secretariat) —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
5. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	6* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). [Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.]

7	8	9	10
Not applicable	Essential : (i) Possessing of a valid driving licence for Motor Car; (ii) knowledge of Motor Car Mechanism; (iii) 8th Standard pass from a recognised school; and (iv) experience of driving a Motor Car for at least three years.	Not applicable	Not applicable

11	12
Deputation or re-employment failing which by direct recruitment	Officials of the Central Government/State Government :— (i) holding analogous posts on regular basis; and possessign of a valid driving Licence for Motor Car; (ii) a pass in 8th Standard and ability to read and write English and Hindi; and (iii) knowledge of Motor Car Mechanism. Experience : At least three years' experience in the related field.

13.	14
Selection Committee Comprising of :	Not applicable.
1. Director or Deputy Secretary (National Security Council Secretariat) —Chairman	
2. Under Secretary (National Security Council Secretariat) —Member	
3. Section Officer (National Security Council Secretariat) —Member	

1	2	3	4	5	6
6. Despatch Rider	4* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4500	Not applicable	Not exceeding 27 years. (Relaxable for Government servants/Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). [Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.]
7	8	9	10		
Not applicable	Essential : (i) Possession of a valid driving licence for Motor Cycle/Autorickshaw. (ii) Two years experience in driving Motor Cycle/Autorickshaw.	Not applicable	To years for direct recruits.		

(iii) Knowledge of Motor Cycle/ Autorickshaw Mechanism. (The incumbent should be able to remove minor defects in the vehicles).

(iv) Ability to read and write English and Hindi.

Desirable :

(i) 8th Standard pass from a recognised school.

(ii) Experience as Home Guards or Civil Defence volunteers.

Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Joint Secretary (Admn.) in the case of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe if at any stage of selection Joint Secretary (Admn.) is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

11

Deputation/absorption failing which by direct recruitment.

Preference will, however, be given to the regularly appointed Group 'D' employees of National Security Council Secretariat fulfilling the qualifications prescribed for direct recruits. Where no suitable person among them is available, direct recruitment will be made.

12

Not applicable

13

Selection Committee Comprising of :

1. Director or Deputy Secretary (National Security Council Secretariat)
2. Under Secretary (National Security Council Secretariat)
3. Section Officer (National Security Council Secretariat)

14

Not applicable.

—Chairman

—Member

—Member

[No. A-12012/1/99-Admn.]

Y. P. SEHGAL, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 253.— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2005 कहा जाए।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम—संघ शासित प्रदेश” शीर्षक और उसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम—संघ शासित प्रदेश

1. अरुणाचल प्रदेश, गोवा-मिजोरम-संघ शासित प्रदेशों की सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद 106

(क) अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ इयूटी पद 21

पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में) 1

पुलिस महानिरीक्षक 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वी रेंज 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, पश्चिमी रेंज 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/प्रशिक्षण 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना 1

पुलिस अधीक्षक, तिरप 1

पुलिस अधीक्षक, लोहित 1

पुलिस अधीक्षक, पश्चिम कामोंग 1

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी कामोंग 1

पुलिस अधीक्षक, त्वांग 1

पुलिस अधीक्षक, निचली सुनान सिरी 1

पुलिस अधीक्षक, ऊपरी सुनान सिरी 1

पुलिस अधीक्षक, पूर्वी रिझांग 1

पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी रिझांग 1

पुलिस अधीक्षक, दिबंग घाटी 1

पुलिस अधीक्षक, चांगलाँग 1

पुलिस अधीक्षक, ऊपरी सियाँग 1

पुलिस अधीक्षक, पप्प पारा 1

पुलिस अधीक्षक, कुरंग कूमे 1

पुलिस अधीक्षक, दिबंग घाटी 1

(ख) गोवा सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ इयूटी पद 4

पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में) 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज 1

पुलिस अधीक्षक, दक्षिण गोवा 1

पुलिस अधीक्षक, उत्तरी गोवा 1

(ग) मिजोरम सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद 14

पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में) 1

पुलिस महानिरीक्षक 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी. 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/प्रशिक्षण 1

पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना 1

पुलिस अधीक्षक, आइजवाल 1

पुलिस अधीक्षक, लुंगली 1

पुलिस अधीक्षक, सेहा 1

पुलिस अधीक्षक, चम्पाही 1

पुलिस अधीक्षक, कोलासिब 1

पुलिस अधीक्षक, मामित 1

पुलिस अधीक्षक, लवोंगथलाई 1

पुलिस अधीक्षक, सिरचिप 1

(घ) अंडमान और निकोबार सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद 5

पुलिस महानिरीक्षक 1

उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज/सशस्त्र पुलिस 1

उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना 1

पुलिस अधीक्षक, अंडमान 1

पुलिस अधीक्षक, निकोबार 1

(ङ) चंडीगढ़ सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद 3

पुलिस महानिरीक्षक 1

पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा 1

पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ 1

(च) दमन तथा द्वीव/दादर तथा नागर हवेली के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद 4

पुलिस उप महानिरीक्षक 1

पुलिस अधीक्षक, दमन 1

पुलिस अधीक्षक, दादर तथा नागर हवेली 1

पुलिस अधीक्षक, द्वीव 1

(छ) दिल्ली सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद 50

पुलिस आयुक्त 1

पुलिस महानिदेशक, होम गार्ड तथा कमांडेंट जनरल सिविल डिफेंस 1

विशेष पुलिस आयुक्त—प्रशासन 1

विशेष पुलिस आयुक्त—आसूचना 1

विशेष पुलिस आयुक्त—सुरक्षा तथा यातायात 1

संयुक्त पुलिस आयुक्त—सतर्कता 1

संयुक्त पुलिस आयुक्त—सशस्त्र पुलिस 1

संयुक्त पुलिस आयुक्त—संचालन 1

संयुक्त पुलिस आयुक्त—राष्ट्रपति भवन	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—अपराध	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—प्रशिक्षण	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—नई दिल्ली रेंज	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—दक्षिणी क्षेत्र	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—उत्तरी क्षेत्र	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—सुरक्षा	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—यातायात	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—विशेष शाखा	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—महिलाओं के विरुद्ध अपराध	1
संयुक्त पुलिस आयुक्त—भण्डारण तथा लाईन यूनिट	1
अपर पुलिस आयुक्त—सुरक्षा	1
अपर पुलिस आयुक्त—यातायात	1
अपर पुलिस आयुक्त—सशस्त्र पुलिस	1
अपर पुलिस आयुक्त—पी.सी.आर.	1
अपर पुलिस आयुक्त—मुख्यालय	1
अपर पुलिस आयुक्त—विशेष शाखा	1
अपर पुलिस आयुक्त—प्रधान मंत्री सुरक्षा	1
अपर पुलिस आयुक्त—अपराध	1
अपर पुलिस आयुक्त—ई ओ डब्ल्यू	1
प्रधानाचार्य, पी टी सी	1
उप पुलिस आयुक्त (I), पूर्वी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), नई दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी-पूर्वी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), सेन्ट्रल दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी पश्चिमी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), दक्षिणी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (I), पश्चिमी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), नई दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी पूर्वी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), सेन्ट्रल दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी पश्चिमी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), दक्षिणी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त (II), दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली	1
उप पुलिस आयुक्त, सुरक्षा	1
उप पुलिस आयुक्त, यातायात	1
उप पुलिस आयुक्त, अपराध	1
उप पुलिस आयुक्त, ई ओ डब्ल्यू	1
उप पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग	1

(ज) लक्षद्वीप सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	1
पुलिस अधीक्षक	1
(झ) पांडिचेरी सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	4
पुलिस महानिरीक्षक	1
पुलिस उप महानिरीक्षक—मुख्यालय तथा आसूचना	1
पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय	1
पुलिस अधीक्षक, अपराध और आसूचना	1
1. कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद	106
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व,	
उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	42
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का	
25 प्रतिशत की दर से	27
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का	
3.5 प्रतिशत की दर से	04
5. भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली,	
1954 के नियम के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा	
भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा	
4 के 331/3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	59
6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व,	
उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	17
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद	137
(मद 1+2+3+4+6-5)	
सीधी भर्ती के पद	137
पदोन्नति वाले पद	59
कुल प्राधिकृत संख्या	196

[सं. 11052/01/2005-अ.भा.से.-II-क]

एस. के. लोहनी, निदेशक

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ शासित क्षेत्र संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 162 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की सं. का.नि.आ. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में भारतीय पुलिस सेवा के अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित तारीखों वाली सा.का.नि. संख्याओं के अंतर्गत संशोधित किए गए थे :—

क्रम सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	661	29-06-1974
2.	294 (अ)	14-01-1976
3.	349 (अ)	01-07-1978
4.	402 (अ)	11-07-1980
5.	658	24-04-1983
6.	380	31-05-1986
7.	1222 (अ)	28-12-1988
8.	429	21-07-1990
9.	532	24-06-1994
10.	320 (अ)	31-03-1995
11.	740 (अ)	31-12-1997
12.	109 (अ)	03-03-1998

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 21st July, 2005

G.S.R. 253.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading '**Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories**' for the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:—

ARUNACHAL PRADESH-GOA-MIZORAM-UNION TERRITORIES

1. Senior Posts under the Governments of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories	106
(a) Senior Duty Posts under the Govt. of Arunachal Pradesh	21
Director General of Police (In the Rank of ADGP)	1
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police, East Range	1
Deputy Inspector General of Police, West Range	1
Deputy Inspector General of Police, HQ/Training	1
Deputy Inspector General of Police, Intelligence	1
Superintendent of Police, Tirap	1
Superintendent of Police, Lohit	1
Superintendent of Police, West Kamong	1
Superintendent of Police, East Kamong	1
Superintendent of Police, Tawang	1
Superintendent of Police, Lower Sunansiri	1
Superintendent of Police, Upper Sunansiri	1
Superintendent of Police, East Siang	1
Superintendent of Police, West Siang	1
Superintendent of Police, Dibang Valley	1
Superintendent of Police, Changlong	1
Superintendent of Police, Uppar Siang	1

Superintendent of Police, Papum Para	1
Superintendent of Police, Kurung Kumey	1
Superintendent of Police, Dibang Valley	1
(b) Senior Duty Posts under the Govt. of Goa	4
Director General of Police (In the Rank of ADGP)	1
Deputy Inspector General of Police, Range	1
Superintendent of Police, South Goa	1
Superintendent of Police, North Goa	1
(c) Senior Duty Posts under the Govt. of Mizoram	14
Director General of Police (In the Rank of ADGP)	1
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police, Range	1
Deputy Inspector General of Police, CID	1
Deputy Inspector General of Police, HQ/Training	1
Deputy Inspector General of Police, Intelligence	1
Superintendent of Police, Aizawl	1
Superintendent of Police, Lunglei	1
Superintendent of Police, Saiha	1
Superintendent of Police, Champhai	1
Superintendent of Police, Kolasib	1
Superintendent of Police, Mamit	1
Superintendent of Police, Lawngtlai	1
Superintendent of Police, Serchhip	1
(d) Senior Duty Posts under Government of Andaman & Nicobar Islands	5
Inspector General of Police	1
Deputy Inspector General of Police, Range/Armed Police	1
Deputy Inspector General of Police, Intelligence	1
Superintendent of Police, Andaman	1
Superintendent of Police, Nicobar	1
(e) Senior Duty Posts under Government of Chandigarh	3
Inspector General of Police	1
Superintendent of Police, Security	1
Superintendent of Police, Chandigarh	1
(f) Senior Duty Posts under Government of Daman & Diu/Dadra & Nagar Haveli	4
Deputy Inspector General of Police	1
Superintendent of Police, Daman	1
Superintendent of Police, Dadra & Nagar Haveli	1
Superintendent of Police, Diu	1

(g) Senior Duty Posts under Government of Delhi		50			
Commissioner of Police	1		Dy. Commissioner of Police (II), Central Delhi	1	
Director General Home Guards & Commandant General Civil Defence	1		Dy. Commissioner of Police (II), North Delhi	1	
Spl. Commissioner of Police - Admn.	1		Dy. Commissioner of Police (II), North-West Delhi	1	
Spl. Commissioner of Police - Intelligence	1		Dy. Commissioner of Police (II), South Delhi	1	
Spl. Commissioner of Police - Security & Taraffic	1		Dy. Commissioner of Police (II), South-West Delhi	1	
Jt. Commissioner of Police - Vigilance	1		Dy. Commissioner of Police - Security	1	
Jt. Commissioner of Police - Armed Police	1		Dy. Commissioner of Police - Traffic	1	
Jt. Commissioner of Police - Operations	1		Dy. Commissioner of Police - Crime	1	
Jt. Commissioner of Police - R.P. Bhawan	1		Dy. Commissioner of Police - EOW	1	
Jt. Commissioner of Police - Crime	1		Dy. Commissioner of Police - Licensing	1	
Jt. Commissioner of Police - Training	1		(h) Senior Duty Posts under Government of Lakshadweep		
Jt. Commissioner of Police - New Delhi Range	1		Superintendent of Police	1	
Jt. Commissioner of Police - Southern Range	1		(i) Senior Duty Posts under Government of Pondicherry		
Jt. Commissioner of Police - Northern Range	1		Inspector General of Police	1	
Jt. Commissioner of Police - Security	1		Deputy Inspector General of Police, HQ & Intelligence	1	
Jt. Commissioner of Police - Traffic	1		Superintendent of Police, HQs	1	
Jt. Commissioner of Police - Special Branch	1		Superintendent of Police, Crime & Intelligence	1	
Jt. Commissioner of Police - Crime Against Women	1				
Jt. Commissioner of Police - Provisioning & Lines Unit	1		1. Total Senior Duty Posts	106	
Addl. Commissioner of Police - Security	1		2. Central Deputation Reserve @ 40% of Item 1 above	42	
Addl. Commissioner of Police - Traffic	1		3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	27	
Addl. Commissioner of Police - Armed Police	1		4. Training Reserve @ 3.5 % of Item 1 above	04	
Addl. Commissioner of Police - PCR	1		5. Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, not exceeding 33-1/3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	59	
Addl. Commissioner of Police - HQs	1		6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	17	
Addl. Commissioner of Police - Special Branch	1		7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+6+5)	137	
Addl. Commissioner of Police - PM Security	1		Direct Recruitment Posts	137	
Addl. Commissioner of Police - Crime	1		Promotion Posts	59	
Addl. Commissioner of Police - EOW	1		Total Authorised Strength	196	
Principal, PTC	1				
Dy. Commissioner of Police (I), East Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), New Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), North-East Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), Central Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), North Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), North-West Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), South Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), South-West Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (I), West Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (II), New Delhi	1				
Dy. Commissioner of Police (II), North-East Delhi	1				

[No. 11052/01/2005-AIS-II-A]

S.K. LOHANI, Director

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the Total Authorised Strength of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories IPS Cadre was 162.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-

Union Territories Cadre of Indian Police Service
vide following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	CSR	Date
1.	661	29-06-1974
2.	294(E)	14-01-1976
3.	349(E)	01-07-1978
4.	402(E)	11-07-1980
5.	658	24-04-1983
6.	380	31-05-1986
7.	1222(E)	28-12-1988
8.	429	21-07-1990
9.	532	24-06-1994
10.	320(E)	31-03-1995
11.	740(E)	31-01-1997
12.	109(E)	03-03-1998

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 254.— भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एकद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियमावली, 2004 है।
- (ii) ये नियम सरकारी भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तालिका की अनुसूची-III में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में, प्रथम कॉलम की "अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम" प्रविष्टि और दूसरे तथा तीसरे कॉलमों में तदनुसूची प्रविष्टियों का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, और मिजोरम—संघ राज्य क्षेत्र

अरुणाचल प्रदेश

पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में)	22400-525-24500 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वी रेंज	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, पश्चिमी रेंज	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक मुख्यालय/प्रशिक्षण	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना	16400-450-20000 रुपए
गोवा	
पुलिस महानिरीक्षक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में)	24050-650-26000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज	16400-450-20000 रुपए

मिजोरम

पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के रैंक में)	22400-525-24500 रुपए
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी.	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/प्रशिक्षण	16400-450-20000 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना	16400-450-20000 रुपए
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज/सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रुपए
उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना	16400-450-20000 रुपए
चंडीगढ़	
पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रुपए
दमन तथा दीव/दादर तथा नागर हवेली	
उप पुलिस महानिरीक्षक	16400-450-20000 रुपए
दिल्ली सरकार	
पुलिस आयुक्त	24050-650-26000 रुपए
पुलिस महानिदेशक, होम गार्ड तथा कमांडेंट जनरल सिविल डिफेंस	24050-650-26000 रुपए
विशेष पुलिस आयुक्त-प्रशासन	22400-525-24500 रुपए
विशेष पुलिस आयुक्त-आसूचना	22400-525-24500 रुपए
विशेष पुलिस आयुक्त-सुरक्षा तथा यातायात	22400-525-24500 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-सतर्कता	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-सशस्त्र पुलिस	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-संचालन	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-राष्ट्रपति भवन	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-अपराध	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-प्रशिक्षण	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-नई दिल्ली रेंज	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-दक्षिणी क्षेत्र	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-उत्तरी क्षेत्र	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-सुरक्षा	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-यातायात	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त-विशेष शाखा	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त- महिलाओं के विरुद्ध अपराध	18400-500-22400 रुपए
संयुक्त पुलिस आयुक्त- भण्डारण तथा लाईन यूनिट	18400-500-22400 रुपए

अपर पुलिस आयुक्त—सुरक्षा	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—यातायात	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—सशस्त्र पुलिस	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—पी.सी.आर.	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—मुख्यालय	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—विशेष शाखा	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—प्रधान मंत्री सुरक्षा	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—अपराध	16400-450-20000 रुपए
अपर पुलिस आयुक्त—ई ओ डब्ल्यू.	16400-450-20000 रुपए
प्रधानाचार्य, पी टी सी	16400-450-20000 रुपए

पांडिचेरी सरकार

पुलिस महानिरीक्षक	18400-500-22400 रुपए
पुलिस उप महानिरीक्षक- मुख्यालय तथा आसूचना	16400-450-20000 रुपए

II. - "अनुसूची III-ख में, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में, (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन लेने वाले पदों में, 'तालिका के पहले कॉलम में आने वाली शारखंड प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अरुणाचल प्रदेश

पुलिस अधीक्षक, तिरप
पुलिस अधीक्षक, लोहित
पुलिस अधीक्षक, पश्चिम कामोंग
पुलिस अधीक्षक, पूर्वी कामोंग
पुलिस अधीक्षक, त्वांग
पुलिस अधीक्षक, निचली सुनान सिरी
पुलिस अधीक्षक, उपरी सुनान सिरी
पुलिस अधीक्षक, पूर्व रिझांग
पुलिस अधीक्षक, पश्चिम रिझांग
पुलिस अधीक्षक, दिबंग घाटी
पुलिस अधीक्षक, चागलॉंग
पुलिस अधीक्षक, ऊपरी सियांग
पुलिस अधीक्षक, पप्प पारा
पुलिस अधीक्षक, कुरंग कुमे
पुलिस अधीक्षक, दिबंग घाटी

गोवा

पुलिस अधीक्षक, दक्षिण गोवा
पुलिस अधीक्षक, उत्तरी गोवा

मिजोरम

पुलिस अधीक्षक, आइजवाल

पुलिस अधीक्षक, लुंगली
पुलिस अधीक्षक, सेहा
पुलिस अधीक्षक, चम्पाही
पुलिस अधीक्षक, कोलासिब
पुलिस अधीक्षक, मामित
पुलिस अधीक्षक, लवंगथलाई
पुलिस अधीक्षक, सिरचिप
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
पुलिस अधीक्षक, अंडमान
पुलिस अधीक्षक, निकोबार

चंडीगढ़

पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा
पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़

दमन तथा द्वीव/दादर तथा नागर हवेली

पुलिस अधीक्षक, दमन
पुलिस अधीक्षक, दादर तथा नागर हवेली
पुलिस अधीक्षक, द्वीव

दिल्ली

उप पुलिस आयुक्त (I), पूर्वी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), नई दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी-पूर्वी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), सेन्ट्रल दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), उत्तरी पश्चिमी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), दक्षिणी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (I), पश्चिमी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), नई दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी पूर्वी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), सेन्ट्रल दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), उत्तरी पश्चिमी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), दक्षिणी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त (II), दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली
उप पुलिस आयुक्त, सुरक्षा
उप पुलिस आयुक्त, यातायात
उप पुलिस आयुक्त, अपराध
उप पुलिस आयुक्त, ई ओ डब्ल्यू
उप पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग

लक्षद्वीप सरकार

पुलिस अधीक्षक

पांडिचेरी सरकार

पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय

पुलिस अधीक्षक-अपराध और आसूचना

[सं. 11052/01/2005-अ.भा.से.-II-ख]

एस. के. लोहनी, निदेशक

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 158 दिनांक 14 सितम्बर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। बाद में अनुसूची III में प्रविष्टियों, क्रमशः निम्नलिखित तारीख की सा.का.नि. संख्या के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के लिए संशोधित की गई।

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	907	14-04-1974
2.	295(अ)	14-04-1976
3.	360(अ)	01-07-1978
4.	403	11-07-1980
5.	657	28-08-1983
6.	409	07-06-1986
7.	1221	28-12-1988
8.	412	07-07-1990
9.	533(अ)	24-06-1994
10.	110(अ)	03-03-1998

New Delhi, the 21st July, 2005

G.S.R. 254.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951), read with Rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the Government of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram, hereby makes the following Rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 2004.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In "Schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Police Service under the State Government" in the Table, for the entry "Arunachal Pradesh, and Goa-Mizoram" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely:—

**ARUNACHAL PRADESH, GOA AND MIZORAM-
UNION TERRITORIES****Arunachal Pradesh**

Director General of Police (In the Rank of ADGP) Rs. 22400-525-24500

Inspector General of Police Rs. 18400-500-22400

Deputy Inspector General of Police, East Range Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, West Range Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, HQ/Training Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, Intelligence Rs. 16400-450-20000

Goa

Director General of Police (In the Rank of ADGP) Rs. 24050-650-26000

Deputy Inspector General of Police, Range Rs. 16400-450-20000

Mizoram

Director General of Police (In the Rank of ADGP) Rs. 22400-525-24500

Inspector General of Police Rs. 18400-500-22400

Deputy Inspector General of Police, Range Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, CID Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, HQ/Training Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, Intelligence Rs. 16400-450-20000

Andaman & Nicobar Islands

Inspector General of Police Rs. 18400-500-22400

Deputy Inspector General of Police, Range/Armed Police Rs. 16400-450-20000

Deputy Inspector General of Police, Intelligence Rs. 16400-450-20000

Chandigarh

Inspector General of Police Rs. 18400-500-22400

Daman & Diu/Dadra & Nagar Haveli

Deputy Inspector General of Police Rs. 16400-450-20000

Government of Delhi

Commissioner of Police Rs. 24050-650-26000

Director General Home Guards & Commandant General Civil Defence Rs. 24050-650-26000

Spl. Commissioner of Police—Admn. Rs. 22400-525-24500

Spl. Commissioner of Police—Intelligence Rs. 22400-525-24500

Spl. Commissioner of Police—Security & Traffic Rs. 22400-525-24500

Jt. Commissioner of Police— Vigilance	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Armed Police	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Operations	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— R.P. Bhawan	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Crime	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Training	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— New Delhi Range	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Southern Range	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Northern Range	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Security	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Traffic	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Special Branch	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Crime Against Women	Rs. 18400-500-22400
Jt. Commissioner of Police— Provisioning & Lines Unit	Rs. 18400-500-22400
Addl. Commissioner of Police— Security	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— Traffic	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— Armed Police	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— PCR	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— HQs	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— Special Branch	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— PM Security	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— Crime	Rs. 16400-450-20000
Addl. Commissioner of Police— EOW	Rs. 16400-450-20000
Principal. PTC	Rs. 16400-450-20000

Government of Pondicherry

Inspector General of Police	Rs. 18400-500-22400
Deputy Inspector General of Police, HQ & Intelligence	Rs. 16400-450-20000

II. In "Schedule III-B—Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Police Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in time scale)" in the Table, for the entry "Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram-Union Territories" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Arunachal Pradesh

Superintendent of Police, Tirap
 Superintendent of Police, Lohit
 Superintendent of Police, West Kamong
 Superintendent of Police, East Kamong
 Superintendent of Police, Tawang
 Superintendent of Police, Lower Sunansiri
 Superintendent of Police, Upper Sunansiri
 Superintendent of Police, East Siang
 Superintendent of Police, West Siang
 Superintendent of Police, Dibang Valley
 Superintendent of Police, Changlong
 Superintendent of Police, Upper Siang
 Superintendent of Police, Papum Para
 Superintendent of Police, Kurung Kumey
 Superintendent of Police, Dibang Valley

Goa

Superintendent of Police, South Goa
 Superintendent of Police, North Goa

Mizoram

Superintendent of Police, Aizawl
 Superintendent of Police, Lunglei
 Superintendent of Police, Saiha
 Superintendent of Police, Champhai
 Superintendent of Police, Kolasib
 Superintendent of Police, Mamit
 Superintendent of Police, Lawngtlai
 Superintendent of Police, Serchhip

Andaman & Nicobar Islands

Superintendent of Police, Andaman
 Superintendent of Police, Nicobar

Chandigarh

Superintendent of Police, Security
 Superintendent of Police, Chandigarh

Daman & Diu/Dadra & Nagar Haveli

Superintendent of Police, Daman
 Superintendent of Police, Dadra & Nagar Haveli
 Superintendent of Police, Diu

Govt. of Delhi

Dy. Commissioner of Police (I), East Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), New Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), North-East Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), Central Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), North Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), North-West Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), South Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), South-West Delhi
 Dy. Commissioner of Police (I), West Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), New Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), North-East Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), Central Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), North Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), North-West Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), South Delhi
 Dy. Commissioner of Police (II), South-West Delhi
 Dy. Commissioner of Police—Security
 Dy. Commissioner of Police—Traffic
 Dy. Commissioner of Police—Crime
 Dy. Commissioner of Police—EOW
 Dy. Commissioner of Police—Licensing

Govt. of Lakshadweep

Superintendent of Police

Govt. of Pondicherry

Superintendent of Police, HQ's

Superintendent of Police, Crime & Intelligence

[No. 11052/01/2005-AIS-II-B]

S.K. LOHANI, Director

Note : The Principal Rules were published in the Gazette vide No. GSR 158 dated 14-9-1954. The entries in Schedule III in respect of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre of the Indian Police Service have been subsequently amended vide the following GSR numbers and dates respectively :—

Sl. No.	GSR No.	Date
1.	907	14-04-1974
2.	295(E)	14-04-1976
3.	360(E)	01-07-1978
4.	403	11-07-1980
5.	657	28-08-1983
6.	409	07-06-1986
7.	1221	28-12-1988
8.	412	07-07-1990
9.	533(E)	24-06-1994
10.	110(E)	03-03-1998

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 255.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन विस्तार निदेशालय में उप निदेशक (लेखा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय विस्तार निदेशालय, उप निदेशक (लेखा) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
उप निदेशक (लेखा)	01* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325- 15200 रु.	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अनधिक टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7		8		9	10
नहीं		आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य (ii) जिसने केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या सम- तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (iii) सरकारी कार्यालयों में लेखा संबंधी कार्य में छह वर्ष का अनुभव।		लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

11

संयुक्त पद्धति (प्रोन्नति घन प्रतिनियुक्ति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। बाहरी व्यक्तियों के साथ विभागीय अधिकारी पर विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो उक्त पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

12

प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति :

I. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 7500-12000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; या
- (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; या
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों।

II. बाहरी व्यक्तियों के साथ 6500-10500 रुपए वेतनमान में ऐसा विभागीय सहायक लेखा अधिकारी जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी विचार किया जाएगा। यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी :	उक्त पद पर नियुक्ति के लिए और इन नियमों के किसी उपबंध का संशोधन करने या उसे शिथिल करने के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. संयुक्त सचिव (विस्तार) —अध्यक्ष	
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) —सदस्य	
3. प्रशासन निदेशक, विस्तार निदेशालय —सदस्य	

[फा. सं. 1-1/2001-प्रसार]

रानी तलरेजा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 4th July, 2005

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Accounts) in the Directorate of Extension under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Directorate of Extension, Deputy Director (Accounts) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification
(1)	(2)	(3)
Deputy Director (Accounts)	1* (One) (2005) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group "A" Gazetted, Non-Ministerial.

Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(4)	(5)	(6)
Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Not exceeding 40 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Whether benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, admissible	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)	(9)
No	Essential : (i) Degree of a recognized University or equivalent. (ii) A pass in the Subordinate Accounts Services or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Departments of the Central Government. (iii) Six years' experience of accounts works in the Government Offices. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2 The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not Applicable
Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
(10)	(11)	(12)
One year for direct recruits and promotees	Composite method (Promotion plus Deputation) failing which by direct recruitment.	Deputation/promotion 1. Officers under the Central Government.— A (i) holding analogous post on regular basis in

(11)	(12)
The Departmental officer will also be considered along with outsiders and in case, he/she is selected, the post shall deem to have been filled by promotion.	<p>the parent cadre/Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/Department; or</p> <p>(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay or Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>II. The Departmental Assistant Accounts Officer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with eight years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-</p> <p>(1) Joint Secretary (Extension) —Chairman</p> <p>(2) Joint Secretary (Administration) —Member</p> <p>(3) Director of Administration, Directorate of Extension —Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending or relaxing any provision of these rules.</p>

[F.No. 1-1/2001-Extn.]

RANI TALREJA, Under Secy.

(पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2005

सा.का.नि. 256.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (समूह ग) भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में, टेलेक्स/टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (टेलेक्स/टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
टेलेक्स/टेलीफोन आपरेटर	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसन्धिवीय)	4000-100- 6000 रु.	लागू नहीं हाता	28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो अंसम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्था से टेलेक्स और टेलीफोन आपरेटर में प्रमाणपत्र	लागू नहीं होता	दो वर्ष
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	
11	12		
सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
13	14		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

[फा. सं. 2-20/2002- एफ वाई. प्रशासन]

आर. के. मेहता, अवर सचिव

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 12th July, 2005

G.S.R. 256.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Fishery Survey of India (Group C) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Telex/Telephone Operator in Fishery Survey of India, Mumbai, under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Fishery Survey of India, (Telex/Telephone Operator) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes, and other special categories of persons in accordance with the Orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
Telex/Telephone Operator	1(One)* (2005) *Subject to variation on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	28 years (Relaxable for Central Government servants upto 5 years in accordance with Government orders). Note :— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).
Whether benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
No	1. Matriculation Or equivalent from a recognized Board/ Institution 2. Certificate in Telex and Telephone Operator from a recognised Institution		Not applicable		Two years.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.				
11	12				
100% by Direct Recruitment.	Not applicable				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
13	14				
Not applicable	Not applicable				

[F. No. 2-20/2002-Fy. Admn.]

R. K. MEHTA, Under Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2005

सा. का. नि. 257.—मसाले श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 का प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सा. का. नि. 332 तारीख 20 सितम्बर, 2004 के अधीन प्रकाशित किया गया था। जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव मांगे थे, प्रकाशित किया गया था।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 अक्टूबर, 2004 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1962, (2) इलायची श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1962, (3) हल्दी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964, (4) मिर्च पॉऊडर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964, (5) अदरक श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964, (6) सौंफ (साबुत और ग्राउंड), मेथी (साबुत और ग्राउंड), और अजवाइन बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1967, (7) काली मिर्च श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1969, और (8) धनिया श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1997, (9) जीरा बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1997, और (10) बड़ी इलायची श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मसाले श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2005 है।

(2) ये निम्नलिखित मसालों (साबुत और पॉऊडर) को लागू होंगे, अर्थात्:—

- (क) हल्दी (कुरकुमा लौंग एल०)
- (ख) मिर्च/पदार्थ मिर्च/पपरीका (कैपसिकम एनम एल०)
- (ग) काली मिर्च (पाईपर निगरम)
- (घ) इलायची (इलैटरिया कारडामम)
- (ङ) बड़ी इलायची (एमोमम सबुलतम रोजबुर्ग)
- (च) धनिया (कोरिएंड्रम सटाइवम एल०)
- (छ) अदरक (जिंजीबर आफिसीनेल)
- (ज) जीरा (क्यूमीनम सीसीनम एल०)
- (झ) सौंफ (फोनीकुलम वूलगेयर)
- (ञ) मेथी (ट्राईगोनेला फोनुम ग्रेसम एल०)
- (ट) अजवाइन बीज (अपीम ट्रेवोलनस एल०)

(3) ये राजपत्र में उनके प्राकशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे मसालों का इन नियमों में विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नित करने के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है;
- (ग) "प्राधिकार प्रमाणपत्र" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को मसालों (साबुत और पॉऊडर) का श्रेणी और चिह्नांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 5 में निर्दिष्ट "एगमार्क अधिचिह्न" अभिप्रेत है;
- (च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. श्रेणी अभिधान:—मसालों की क्वालिटी को उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 1 से 18 के स्तंभ 1 में वर्णित रूप में

होंगे।

4. **क्वालिटी:**—इन नियमों के प्रयोजन के लिए, मसालों (साबुत और पाउडर) की क्वालिटी और साधारण अपेक्षाएं वे होंगी जो नीचे वर्णित स्तंभों और अनुसूचियों में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के समाने दी गई हैं;

स्तंभ	अनुसूचियां
2 से 6	18
2 से 7	1, 2, 10, 15 और 17
2 से 8	2, 11, 14 और 16
2 से 9	7, 13, 17, 19, 20 और 24
2 से 10	3, 15, 18, 21, 22 और 26
2 से 11	8, 9 और 12
2 से 12	5 और 6

5. **श्रेणी अभिधान चिह्न:**—श्रेणी अभिधान चिह्न में ऐसी डिजाइन होगी जिसमें प्राधिकार प्रमाणपत्र की संख्या, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 29 में वर्णित एक के सदृश श्रेणी अभिधान समाहित होंगे।

6. **पैक करने का ढंग:**—

(1) मसालों (साबुत और पीसे हुए) को ऐसी बोरियों/पटसन की बोरियों, पोलीब्यूतिट बैगों, पोलि पोचों, कपड़े के बैगों या अन्य उपयुक्त ऐसी पैकेजों में पैक किया जाएगा जो स्वच्छ, मजबूत, कीटों, फफूंदी के आकीर्णन से मुक्त हों तथा पैक करने की सामग्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 के अधीन बनाए गए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन अनुज्ञात की गई सामग्री होगी;

(2) मसालों (साबुत और पाउडर) को ऐसी बोरियों/पटसन की बोरियों, पोलीयुक्त बैगों, कपड़े के बैगों, पेपर बैगों और कार्डबोर्ड कार्टून में पैक करने के लिए खाद्य श्रेणी, पोलीप्रोपलिन/पोलिथीन का उपयोग उपर्युक्त लाइनिंग में किया जाएगा;

(3) आधान, जिनके अंतर्गत पैकेजिंग सामग्री भी है, ऐसे पदार्थों से बनाए जाएंगे जो उनके आशयित उपयोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त हों वे कोई भी विषाक्त पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुगंध उत्पाद में न लगा पाए;

(4) मसाले (साबुत और पाउडर) कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार पैक साइजों में पैक किए जाएंगे;

(5) प्रत्येक पैकेज में एक ही किस्म की और एक ही श्रेणी अभिधान के मसाले (साबुत और पाउडर) होंगे;

(6) उसी लोट/बैच के छोटे पैक आकार की श्रेणीकृत सामग्री है जो किसी मास्टर आधान की श्रेणी अभिधान चिह्नांकन में संपूर्ण ब्यौरे की श्रेणी में पैक किए जा सकेंगे;

(7) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रूप से बंद और मुहर बंद किया जाएगा।

7. **चिह्नांकन का ढंग:**—

(1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में साधारण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार चिपकाया जाएगा या मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक लेबल या पैकेज पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः और पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नित की जाएंगी:—

(क) पैकर का नाम और पता;

(ख) विनिर्माण/पैक किए जाने का स्थान;

(ग) पैक किए जाने की तारीख;

(घ) लाट/बैच संख्या;

(ङ.) श्रेणी;

(च) मौसमी फसल (केवल मिर्चियों के मामले में);

(छ) शुद्ध वजन;

(ज) अधिकतम खुदरा कीमत;

(झ) मास वर्ष से पूर्व उत्कृष्ट।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो उत्पाद को संदूषित न करें;

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राय करने के पश्चात्, श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नकित करेगा। परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।

8. प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें :—

साधारण श्रेणीकरण और चिह्नान्कन नियम, 1988 के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें इन नियमों के प्रयोजन के लिए जारी प्रत्येक प्राधिकार प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें होंगी,

- (1) प्राधिकृत पैकर मसालों (साबुत और पौडर) के परीक्षण के लिए या तो अपने स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित श्रेणीकरण प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा;
- (2) परिसर पूर्ण स्वास्थ्य कारक और स्वच्छता की दशाओं से युक्त होंगे जिनमें उचित समवातन होगा तथा प्रकाश की सही व्यवस्था होगी। इन संक्रियाओं में लगे कर्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संसर्गज, संक्रामक या संचारी रोग से मुक्त होंगे।
- (3) उक्त परिसरों में पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी जिनका पक्का फर्श होगा तथा कृन्तक और कीटों के आकीर्णन से मुक्त होंगे।
- (4) प्राधिकृत पैकर परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नान्कन, मुद्रांकन और अभिलेखों के अनुरक्षण के संबंध में ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए जाएं।

अनुसूची-1

(नियम 3 और 4 देखें)

हल्दी (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम) अधिकतम	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम) अधिकतम	त्रुटिपूर्ण प्रकन्द % (एम/एम) अधिकतम	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	करक्यूमीनाइड अंश % (एम/एम) न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	0.8	0.2	3.0	12.0	2.0
मानक	1.5	0.5	5.0	12.0	विनिर्दिष्ट नहीं

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) हल्दी प्राथमिक या द्वितीयक प्रकंद होगी जो वाणिज्यिक रूप से कुरकुमा लोंगा एल पादप का क्रमशः शल्क कंद या अंगुलि होती है;
- (2) प्रकंद प्राकृतिक स्थिति में या पालिश की हुई हो सकती है;
- (3) वे कृत्रिम रूप से रंगी हुई नहीं होंगी;
- (4) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (5) एफ्लाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।
- (6) लेड क्रोमोनेट परीक्षण नकारात्मक होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “त्रुटिपूर्ण प्रकंद” से श्रिवर प्रकंद, आंतरिक रूप से क्षतिग्रस्त, छिद्र या सूक्ष्मरन्ध्र प्रकंद, उबालकर झुलझे गए प्रकंद और अन्य प्रकार के क्षतिग्रस्त प्रकंद अभिप्रेत हैं।
- (ख) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में पत्थर, मिट्टी, धूल कीचड़ के कण भी सम्मिलित हैं।
- (ग) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में प्रकंदों से भिन्न सभी सब्जियों के पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण : जब अंगुलियां पृथक्कृत श्रेणीकृत हैं तब उनमें निम्नलिखित से अधिक अंतर्विष्ट नहीं होगा :—

- (1) विशेष श्रेणी और मानक श्रेणी में क्रमशः 2% और 7% (एम/एम) के प्रकंदों से टुकड़े (लंबाई का 15 मिमी० से कम और गंध)
- (2) विशेष श्रेणी और मानक में क्रमशः शल्क प्रकंद का 2% और 5% (एम/एम)।

अनुसूची-2

(नियम 3 और 4 देखें)

हल्दी पाउडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	हल्दी के अंश का % (एम/एम) न्यूनतम	स्टार्च (एम/एम) अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	10	7.0	1.5	2.0	60
मानक	12	9.0	1.5	विनिर्दिष्ट नहीं	60

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) हल्दी पाउडर, स्वच्छ, शुष्क हल्दी (कुरकुमा लोंगा एल) प्रकंद को संदलीत करके तैयार किया जाएगा;
- (2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि उत्पाद का 98% 300 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके। जब उत्पाद का 98% 800 माइक्रोन की छलनी से छाना जाए तब इस पर 'संदलीत' का लेबल लगाया जाएगा;
- (3) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और यह बाह्य गंध, विकृति गंध और मस्ती सुगंध से मुक्त होगा;
- (4) यह किसी रंजक पदार्थ, बाहरी मंड और किसी अन्य अपमिश्रण से मुक्त होगा;
- (5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।
- (7) लेड क्रोमोनेट परीक्षण नकारात्मक होगा।

अनुसूची-3

(नियम 3 और 4 देखें)

मिर्च/पहाड़ी मिर्च/पपरीका का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी							
	विशेष अभिलक्षण							
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम) अधिकतम	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम) अधिकतम	अपरिपक्व और चिह्नकित फल % (एम/एम) अधिकतम	टूटे हुए फल और टुकड़े % (एम/एम) अधिकतम	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम) अधिकतम	कैप्सेइसिनाईड के अंश का (एम/एम) न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
विशेष	0.8	0.2	2.0	5.0	10.0	7.0	1.25	0.3
मानक	4.0	1.0	5.0	15.0	12.0	8.0	1.25	विनिर्दिष्ट नहीं

सामान्य अपेक्षाएं

(10)

- (1) मिर्च/पहाड़ी मिर्च/पपरीका, पहाड़ी मिर्च जैनाश के पौधों का सूखी फली (फल) है;
- (2) इसकी तीखी लाक्षणिक सुगंध होगी;
- (3) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (4) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "टूटे हुए फलों" से रख-रखाव के दौरान टूटे हुए फल अभिप्रेत हैं;
- (ख) "अंश" से टूटे हुए फलों से प्राप्त फलों के छोटे टुकड़े अभिप्रेत हैं;
- (ग) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर, मिट्टी/धूल कीचड़ के कण भी सम्मिलित हैं;
- (घ) "चिह्नित फल" से काले या काले धब्बेदार फल अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में डंठल, सब्जियों और टुकड़े-टुकड़े सम्मिलित हैं।
- (च) "अपरिपक्व फल" से ऐसे फल जो अब तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हैं और जिनका रंग विचाराधीन बैच के रंग से भिन्न है, अभिप्रेत है।

- टिप्पण : (1) पहाड़ी मिर्च की लंबाई कम से कम 25 एम एम होगी।
- (2) विशेष श्रेणी में कैप्सेइसिनाइड अंश की लेबल पर घोषणा करनी होगी।

अनुसूची-4

(नियम 3 और 4 देखें)

मिर्च/पहाड़ी मिर्च/पपरीका अंश (पाउडर) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	आद्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)	अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा% (एम/एम) न्यूनतम	कैप्सेइसिनाइड अंश % (एम/एम) अधिकतम
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	10.0	7.0	1.25	30.0	12.0	0.3
मानक	11.0	8.0	1.30	30.0	12.0	विनिर्दिष्ट नहीं

सामान्य अपेक्षाएं

(8)

- (1) मिर्च/पहाड़ी मिर्च/पपरीका, क्रमशः साबुत मिर्च/कैप्सीकम/पपरीका के साफ, सूखे हुए, पके हुए फलों को पीस कर प्राप्त की जाएगी। यह मिर्च, पहाड़ी मिर्च और पपरीका का मिश्रण भी हो सकता है;
- (2) यह किसी मिलाए गए रंजक पदार्थ के बिना होगा;
- (3) यह किसी बाह्य या अवांछित दुर्गंध या सुवास से मुक्त होगा;
- (4) यह फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

- टिप्पण : (1) विशेष श्रेणी में कैप्सेइसिनाइड अंश की लेबल पर घोषणा करनी होगी।
- (2) मानक श्रेणी में, मिर्च पाउडर मात्रा में, प्रयुक्त वनस्पति तेल की प्रकृति और मात्रा की लेबल घोषणा के अधीन रहते हुए 2% मात्रा की अधिकतम सीमा तक कोई खाद्य वनस्पति तेल हो सकता है।

अनुसूची-5

(नियम 3 और 4 देखें)

प्रसंस्कृत साबुत काली मिर्च का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी									
	विशेष अभिलक्षण									
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	हल्की बेरी % (एम/एम)	पिनहेडस और टूटी हुई बेरी % (एम/एम)	प्रपुंज घनत्व ग्रा/ली	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	अवाष्प-शील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा % (मिलि/ 100 ग्रा)	शुष्क आधार पर पीपराइन अंश % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	न्यूनतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	0.8	0.2	5.0	4.0	490	11.0	6.0	6.0	2.5	4.0
मानक	1.2	0.3	10.0	4.0	470	12.0	7.0	5.5	2.0	2.0

सामान्य अपेक्षाएं

(12)

- (1) पीपर नीगरम एल सुखी पक्की बेरी काली मिर्च होगी जो किसी अखंडित फलमिती, झुरीदार बाहरी हिस्सा भूरे से काले रंग में होती है;
- (2) यह साफ की जाएगी;
- (3) यह फफूंदी, लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतक संदूषण से मुक्त होगा;
- (4) खनिज तेल का परीक्षण नकारात्मक होना चाहिए;
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं:—

- (क) “टूटे हुए बेरी” से ऐसी बेरी अभिप्रेत है जो दो या अधिक टुकड़ों में अलग हो गई है;
- (ख) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में पत्थर, मिट्टी/धूल कीचड़ के कण भी सम्मिलित हैं;
- (ग) “हल्की बेरी” से ऐसी बेरी अभिप्रेत है जो विकास की सामान्य अवस्था में पहुंच चुके हैं किंतु जिनमें गुठली नहीं है;
- (घ) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में प्रकंदों से भिन्न सभी सब्जियों के पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ङ) “पिनहेडस” से ऐसे छोटे आकार की बेरी अभिप्रेत है जो विकसित नहीं हुई है;
- (च) “प्रसंस्कृत काली मिर्च” से ऐसी मिर्च अभिप्रेत है जो साफ की गई है।

टिप्पण: (1) वाष्पशील तेल अंतर्वस्तु संदलन के ठीक पश्चात् अवधारित की जाएगी।

- (2) इस पर ‘मालाबार’ चिन्हित किया जा सकेगा। इसका 550 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) की प्रपुंज घनत्व होगा। इस पर बेरियों के आकार पर आधारित टी.जी.ई.बी. (टेलीचेरी गार्बलड एक्स्ट्रा बोलड) या टी.जी.एस.ई.बी. (टेलीचेरी गार्बलड स्पेशल एक्स्ट्रा बोलड) भी चिन्हित किया जा सकेगा। बेरियों को टी.जी.ई.बी. और टी.जी.एस.ई.बी. के लिए क्रमशः 4.25 मि.मि. और 4.75 मि.मि. के व्यास के छिद्र वाली छलनी पर रखा जाएगा। दोनों को विशेष श्रेणी के लिए 530 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) और मानक श्रेणी के लिए 500 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) का प्रपुंज घनत्व होगा।

अनुसूची-6

(नियम 3 और 4 देखें)

प्रसंस्कृत काली मिर्च (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी									
	विशेष अभिलक्षण									
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	हल्की बेरी % (एम/एम)	पिनहैडस और टूटी हुई बेरी % (एम/एम)	प्रपूज घनत्व ग्रा/ली	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	अवाष्प-शील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल मात्रा % (मिलि/ 100 ग्रा)	पीपराइन अंश % (एम/एम)
अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	न्यूनतम	न्यूनतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विशेष	0.8	0.2	10.0	5.0	450	12.0	7.0	6.0	2.0	4.0
मानक	1.5	0.5	15.0	5.0	430	13.0	8.0	5.5	1.5	2.0

सामान्य अपेक्षाएं

(12)

- (1) पीपर नीगरम एल सुखी पक्की बेरी काली मिर्च होगी जो किसी अखंडित फलमिती, झुर्रीदार बाहरी हिस्सा भूरे से काले रंगे में होती है;
- (2) यह मैली या आंशिक रूप से साफ की जाएगी;
- (3) यह फफूंदी, लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृन्तक संदूषण से मुक्त होगा;
- (4) यह खनिज तेल और रंजक द्रव्य के विलेपन से मुक्त होगी।
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :-

- (क) "टूटे हुए बेरी" से ऐसी बेरी अभिप्रेत हैं जो दो या अधिक टुकड़ों में अलग हो गई हैं;
- (ख) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर, मिट्टी/धूल कीचड़ के कण भी सम्मिलित हैं;
- (ग) "हल्की सरस बेरी" से ऐसी बेरी अभिप्रेत है जो विकास की सामान्य अवस्था में पहुंच चुके हैं किंतु जिनमें गुठली नहीं है;
- (घ) "अर्द्धप्रसंस्कृत काली मिर्च" से ऐसी मिर्च अभिप्रेत है जो कोई साफ की गई है।
- (ङ) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में प्रकंदों से भिन्न सभी सब्जियों के पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (च) "पिनहैडस" से ऐसे छोटे आकार की बेरी अभिप्रेत है जो विकसित नहीं हुई हैं;
- (छ) "अर्द्धप्रसंस्कृत काली मिर्च" से ऐसी मिर्च अभिप्रेत है जो आंशिक साफ की गई है।

टिप्पण : (1) अप्रसंस्कृत या अर्द्धप्रसंस्कृत साबुत काली मिर्च मानव उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं है;

- (2) वाष्पशील तेल अंतर्वस्तु संदलन के ठीक पश्चात् अवधारित की जाएगी।
- (3) इस पर 'मालाबार' चिह्नित किया जा सकेगा। इसका 550 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) की प्रपूज घनत्व होगा। इस पर बेरी के आकार पर आधारित टी.जी.ई.बी. (टेलीचेरी गार्बलड एक्स्ट्रा बोल्ड) या टी.जी.एस.ई.बी. (टेलीचेरी गार्बलड स्पेशल एक्स्ट्रा बोल्ड) भी चिह्नित किया जा सकेगा। बेरियों को टी.जी.ई.बी. और टी.जी.एस.ई.बी. के लिए क्रमशः 4.25 मि.मि. और 4.75 मि.मि. के व्यास के छिद्र वाली छलनी पर रखा जाएगा। दोनों को विशेष श्रेणी के लिए 530 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) और मानक श्रेणी के लिए 500 ग्राम प्रति लीटर (न्यूनतम) का प्रपूज घनत्व होगा।

अनुसूची-7

(नियम 3 और 4 देखें)

काली मिर्च पाऊंडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी						
	विशेष अभिलक्षण						
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)	अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल मात्रा % (मिलि/ 100 ग्राम)	पीपराइन अंश मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यून तम	न्यूनतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष	11.0	6.0	1.2	17.5	6.0	1.5	4.0
मानक	12.0	8.0	1.2	18.0	5.5	1.0	2.0
सामान्य अपेक्षाएं							
(9)							

सामान्य अपेक्षाएं

(9)

- (1) यह काली मिर्च बेरी को संदलीत करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि संपूर्ण उत्पाद 500 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके। यह इतना बारीक संदलीत किया जा सकता है कि जिससे संपूर्ण उत्पाद 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके। ऐसी दशा में, उत्पाद पर 'मोटा पाऊंडर' का लेबल लगाया जाएगा;
- (3) इसमें काली मिर्च की लाक्षणिक गंध होगी और यह बाह्य गंध और सुरीचिकारक से मुक्त होगा;
- (4) यह किसी विजातीय पदार्थ फफूंदी लगने और जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों से मुक्त होगा, कीट अंशों और कृतक संदूषण से मुक्त होगा;
- (5) यह जोड़े गए रंजक द्रव्य से मुक्त होगी;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-8

(नियम 3 और 4 देखें)

इलायची साबुत कैपस्यूल का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी								
	विशेष अभिलक्षण								
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	खाली और विकृत कैपस्यूल की गणना प्रतिशत	अपरिपक्व और कुम्हलाया हुआ कैपस्यूल % (एम/एम)	काले और विभक्त की गणना प्रतिशत	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल मात्रा % (मिलि/ 100 ग्रा.)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	1.0	0.5	2.0	2.0	शून्य	435	11.0	8.0	3.5
मानक	2.0	1.0	5.0	5.0	10.0	385	12.0	9.5	3.0

सामान्य अपेक्षाएं

(11)

- (1) इलायची कैपस्यूल इलैटेरिया इलायची (एल) का सुखा हुआ, लगभग पका हुआ फल होगा ;
- (2) कैपस्यूल एक गोलभाग सहित या तीन कोणों वाले लंबे आकार के और शिरेदार आकार के होंगे;
- (3) कैपस्यूल अच्छे रूप में और उनमें मोटे दाने होंगे;
- (4) कैपस्यूल लाक्षणिक गंध के होंगे और विजातीय गंध और सुरुचिकारकों से मुक्त होंगे जिसके अंतर्गत विकृत गंध और फफूंदीदार भी है;
- (5) कैपस्यूल के रंग (क) हल्के हरे (ख) हरे (ग) गहरे हरे या (घ) हल्के पीले हो सकेंगे। कैपस्यूलों को रंग समूह के अनुसार पैक किया जाएगा और उस पर लेबल लगाया जाएगा। कम से कम 95% कैपस्यूल अपने-अपने रंग समूह के अनुसार होंगे;
- (6) श्रेणी के अतिरिक्त, इलायची पर निम्न प्रकार से चिन्ह लगाया जाएगा। यह चिन्हांकन केवल तब किया जाएगा तब उत्पाद केवल विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है;
 - (क) अलीपी ग्रीन एक्स्ट्रा बोल्ड (ए.जी.ई.बी.) जब उन्हें 7.0 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है
 - (ख) कोर्ग ग्रीन एक्स्ट्रा बोल्ड (सी.जी.ई.बी.) जब उन्हें 8.0 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है
 - (ग) अलीपी ग्रीन बोल्ड (ए.जी.बी.) जब उन्हें 6.0 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है
 - (घ) कोर्ग ग्रीन बोल्ड (सी.जी.बी.) जब उन्हें 7.5 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है
 - (ङ) अलीपी ग्रीन सुपीरियर (ए.जी.एस.) जब उन्हें 5.0 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है
 - (च) कोर्ग ग्रीन सुपीरियर (सी.जी.एस.) जब उन्हें 6.0 मि.मी. के व्यास के छिद्रों वाली छलनी पर रखा जाता है।
- (7) कैपस्यूल मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
- (8) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतक संदूषण से मुक्त होगा;
- (9) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "काले" के अंतर्गत ऐसे कैपस्यूल आते हैं जो रंग में कालों में से भी काले हैं;
- (ख) "खाली और विकृत कैपस्यूलों" ऐसे कैपस्यूल हैं जिनमें बीज नहीं हो या बीजों की अल्प मात्रा हो;
- (ग) "अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए कैपस्यूलों" ऐसे कैपस्यूल हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं;
- (घ) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर मिट्टी/धूल कीचड़ के कण भी सम्मिलित हैं;
- (ङ) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में प्रकंदों से भिन्न सभी सब्जियों के पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (च) "टूटे हुए" के अंतर्गत ऐसे कैपस्यूल आते हैं जो लम्बाई में आधे से अधिक कोनों तक खुले हुए हैं।

टिप्पण : वाष्पशील तेल अंतर्वस्तु कैपस्यूल से अभिप्राप्त बीजों पर अवधारित की जाएगी।

अनुसूची-9

(नियम 3 और 4 देखें)

विरंजित और आधी विरंजित इलायची साबुत कैपस्यूल का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी								
	विशेष अभिलक्षण								
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	खाली और अपरिपक्व और कुम्हलाया हुआ कैपस्यूल प्रतिशत	आकार (छलनी, जिस पर रखे जाते हैं, के छिद्रों का मि.मी. में व्यास)	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल मात्रा % (मिलि/100 ग्रा.)	
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	1.0	0.5	शून्य	शून्य	8.5	360	11.0	8.0	3.5
मानक	2.0	1.0	शून्य	शून्य	5.0	300	12.0	9.5	3.0

सामान्य अपेक्षाएं

(11)

- (1) इलायची कैपस्यूल इलैटेरिया इलायची (एल) का पूरी तरह विकसित सूखा हुआ फल होगा ;
- (2) कैपस्यूल एक गोलभाग सहित या तीन कोणों वाले रिपड या चिकने लंबे आकार के होंगे;
- (3) कैपस्यूल सल्फर डाई आक्साइड से विरंजित और/या आधे विरंजित किए जाएंगे और पीली क्रीम से सफेद रंग के होंगे;
- (4) कैपस्यूल मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
- (5) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विपाकत धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “खाली और विकृत कैपस्यूलों” ऐसे कैपस्यूल हैं जिनमें बीज नहीं हो या बीजों की अल्प मात्रा हो;
- (ख) “अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए कैपस्यूलों” ऐसे कैपस्यूल हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं;
- (ग) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में पत्थर मिट्टी/धूल कीचड़ या अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (घ) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में विक्षेपित युक्तशेष अदरक और पौधे की प्रजाति के सभी विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;

टिप्पण : वाष्पशील तेल अंतर्वस्तु कैपस्यूल से अभिप्राप्त बीजों पर अवधारित की जाएगी।

अनुसूची-10

(नियम 3 और 4 देखें)

इलायची बीज पाउडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल % (मि.ली./100 ग्राम)	अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	11.0	7.0	2.5	3.5	10
मानक	13.0	8.0	3.0	3.0	12

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) यह इलैटेरिया इलायची (एल) के किसी किस्म के सूखे बीजों को संदलित करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (2) इसकी लाक्षणिक गंध और स्वाद होगा और विजातीय गंध, विकृत गंधिता और फफूंदीदार से मुक्त होगा;
- (3) यह किसी अपमिश्रण और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
- (4) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विपाकत धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-11

(नियम 3 और 4 देखें)

इलायची बीज का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	हल्के बीज % (एम/एम)	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में न्यूनतम	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	वाष्पशील तेल % (मि.ली./100 ग्रा.)
	अधिकतम	अधिकतम		अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	0.5	2.0	675	11.0	7.0	3.5
मानक	1.5	5.0	625	13.0	8.0	3.0
सामान्य अपेक्षाएं						
(8)						

- (1) यह इलैटेरिया कडिगम (एल) के कैपस्यूलों से दानों को अलग करके अभिप्राप्त किए गए दाने होंगे;
- (2) इलायची दाने लाक्षणिक गंध के होंगे और बाह्य गंध और सुरुचिकारकों से मुक्त होंगे जिसके अंतर्गत विकृत गंध और फफूंदीदार भी है;
- (3) इलायची के दाने अकार्बनिक बाह्य पदार्थ और मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
- (4) यह फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृतक संदूषण से मुक्त होंगे;
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “हल्के बीजों” में भूरे या लाल रंग के बीज और अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए बीज सम्मिलित हैं;
- (ख) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में बाह्य दल पुंज, डंठल टुकड़े और कोई अन्य विजातीय पौधे की प्रजाति सम्मिलित है;

अनुसूची-12

(नियम 3 और 4 देखें)

बड़ी इलायची कैपस्यूल का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी								
	विशेष अभिलक्षण								
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अपरिपक्व, कुम्हलाया हुआ और क्षतिग्रस्त कैपस्यूल% (एम/एम)	खाली और विकृत कैपस्यूल मात्रा% (एम/एम)	प्रति लीटर द्रव्यमान ग्रामों में न्यूनतम	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा% (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा% (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा% (मिलि/ 100 ग्रा)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	0.8	0.2	3.0	5.0	350	12.0	8.0	2.0	2.0
मानक	4.0	1.0	5.0	8.0	300	12.0	8.0	2.0	1.0

सामान्य अपेक्षाएं

(11)

- (1) यह अमोमम सुबुलाटम रोक्सब का शुष्क, लगभग परिपक्व से परिपक्व फल होगा ;
- (2) कैपस्यूल अंडाकार होंगे और देखने में लगभग शिराओदार त्रिकोण आकृति के होंगे;
- (3) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और यह बाह्य गंध, विकृत गंध और फफूंदी से मुक्त होंगे;
- (4) यह दृश्यमान गंदगी या धूल से मुक्त होंगे;
- (5) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
- (6) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;
- (7) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "खाली और विकृत कैपस्यूलों" ऐसे कैपस्यूल हैं जिनमें बीज नहीं हो या बीजों की अल्प मात्रा हो;
- (ख) "अपरिपक्व, कुम्हलाए हुए और कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त कैपस्यूलों" ऐसे कैपस्यूल हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं या जो कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त किए हुए हैं;
- (ग) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में धूल, पत्थर मिट्टी या कोई अन्य अकार्बनिक बाह्य पदार्थ सम्मिलित है;
- (घ) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में बाह्य दल पुंज, डंठल टुकड़े और अन्य विजातीय पौधे की प्रजाति सम्मिलित हैं;

टिप्पण : वाष्पशील तेल का अवधारण छिलकों से पृथक करके अभिप्राप्त बीजों को संदलीत करने के तत्काल बाद किया जाएगा।

अनुसूची-13

(नियम 3 और 4 देखें)

बड़ी इलायची बीज का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी						
	विशेष अभिलक्षण						
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	हल्के बीज/ भूरे/लाल बीज% (एम/एम)	कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त बीज% (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा% (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा% (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा% (मिलि/100 ग्रा)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	न्यूनतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
विशेष	0.5	5.0	शून्य	12.0	8.0	2.0	2.0
मानक	1.0	5.0	3.0	12.0	8.0	2.0	1.0

सामान्य अपेक्षाएं

(9)

- (1) यह अमोमम सुबुलाटम रोक्सब के कैपस्यूलों का छिलका (आवरण) हटाकर प्राप्त किया जाएगा;
- (2) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और यह बाह्य गंध, विकृत गंध और फफूंदी से मुक्त होंगे;
- (3) यह दृश्यमान गंदगी या धूल से मुक्त होंगे;
- (4) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
- (5) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतंक संदूषण से मुक्त होगा;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "हल्के बीजों" में ऐसे बीज सम्मिलित हैं जो भूरे या लाल रंग के, टूटे हुए, अपरिपक्व और कुम्हलाए हुए हैं;
- (ख) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में बाह्य दल पुंज, डंठल टुकड़े और कोई अन्य विजातीय पौधे की प्रजाति सम्मिलित है;

टिप्पण : वाष्पशील तेल संदलण के तत्काल बाद अवधारित किया जाएगा।

अनुसूची-14

(नियम 3 और 4 देखें)

बड़ी इलायची बीज पाऊंडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी			
	विशेष अभिलक्षण			
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विशेष	10.0	8.0	2.0	12.0
मानक	12.0	8.0	3.0	15.0

शुष्क आधार पर अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएँ	
न्यूनतम	न्यूनतम		
(6)	(7)	(8)	
विशेष	4.0	1.5	(1) यह अमोमम सुबुलाटम रोकसब के कैपस्यूलों से पृथक् बीजों को संदलीत करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
मानक	2.0	1.0	(2) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और यह बाह्य गंध, विकृति गंध और फफूंदी से मुक्त होगा;
			(3) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि संपूर्ण उत्पाद 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके;
			(4) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होंगे;
			(5) यह फफूंदी लगने और जीवित कीटों से मुक्त होगा और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंशों और कृतक संदूषण से मुक्त होगा;
			(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-15

(नियम 3 और 4 देखें)

धनिया (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ %	अकार्बनिक बह्य पदार्थ %	विभक्त फल %	क्षतिग्रस्त, विवर्णित कुम्हलाया, कीट खाया फल %	आर्द्रता मात्रा %	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा %
	(एम/एम)	(एम/एम)	(एम/एम)	(एम/एम)	(एम/एम)	(एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	0.8	0.2	5.0	2.0	9.0	7.0
मानक	3.5	0.5	30.0	5.0	10.0	7.0

शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं	
अधिकतम	न्यूनतम		
(8)	(9)	(10)	
विशेष	1.0	0.2	(1) धनिया (साबुत) कोरिएंड्रम सटाइवम एल का सूखा हुआ परिपक्व फल होगा;
मानक	1.5	0.1	(2) इसमें कोई मिलाया गया रंजक पदार्थ या परिरक्षक नहीं होगा; (3) यह फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होगा; (4) एफ्लाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “क्षतिग्रस्त, विवर्णित, कुम्हलाए हुए और कीटों खाए फल” में साबुत या विभक्त फल सम्मिलित हैं जो क्षतिग्रस्त, विवर्णित या कुम्हलाए हुए हैं और जिनमें घुन या अन्य कीटों द्वारा खाए जाने के परिणामस्वरूप भागतः या पूर्णतः खाए का निशान होता है;
- (ख) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में पत्थर मिट्टी, रेत के अंश सम्मिलित हैं;
- (ग) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” से धनिया बीज के अतिरिक्त सभी कार्बनिक सामग्री अभिप्रेत है और इसमें वनस्पति मूल के सभी पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (घ) “विभक्त फल” में ऐसे फल सम्मिलित हैं जैसे अनुदैर्ध्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं।

टिप्पण : वाष्पशील तेल संदलण के तत्काल बाद अवधारित किया जाएगा।

अनुसूची-16

(नियम 3 और 4 देखें)

धनिया पाऊडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी			
	विशेष अभिलक्षण			
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विशेष	9.0	6.5	1.0	25.0
मानक	10.0	7.0	1.5	28.0
शुष्क आधार पर अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं		
न्यूनतम	न्यूनतम			
(6)	(7)	(8)		
विशेष	15.0	0.10	(1) धनिया पाऊडर कोरिएंड्रम सटाइवम एल. के साफ, ठोस, सूखे हुए और परिपक्व फलों को संदलीत करके प्राप्त किया जाएगा;	
मानक	12.0	0.05	(2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि 500 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके। यद्यपि, मानक श्रेणी के लिए इसका 95% 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जाना चाहिए;	
			(3) इसमें एक विशेष प्रकार का सौरल और मसाले की लाक्षणिक सुरूचि होगी तथा फफूंदीदार गंध से मुक्त होगा;	
			(4) इसमें कोई मिलाया गया रंजक पदार्थ, परिरक्षक या कोई विजातीय पदार्थ नहीं होगा;	
			(5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृतंक संदूषण से मुक्त होंगी;	
			(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।	

अनुसूची-17

(नियम 3 और 4 देखें)

गारबलड अविरंजित अदरक (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	प्रकंद का आकार (मि. मि. में लंबाई)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)
	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	20.0	1.5	0.5	12.0	8.0
मानक	15.0	1.5	0.5	13.0	8.0

शुष्क आधार पर (कैल्शियम आक्साइड के रूप में) कैल्शियम मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा% (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं	
अधिकतम	न्यूनतम		
(7)	(8)	(9)	
विशेष	1.1	1.5	(1) यह जिंजीबर आफिसीनेल रोज का शुष्कित प्रकंद, टुकड़ों में, टेडे मेड़े आकार में, पीले भूरे रंग का होगा;
मानक	1.1	1.0	(2) इसकी तंतु अंतर्वस्तु छिलने के किस्म के लक्षण की होगी जिसे पूरी तरह छिला नहीं जा सकेगा और इसे गारबल करके छोटे टुकड़ों में प्राप्त किया जा सकेगा;
			(3) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और इसमें फफूंदीगंध, विकृतगंधिता और तीखा स्वाद नहीं होगा;
			(4) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
			(5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृतक संदूषण से मुक्त होंगी;
			(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में धूल, पत्थर मिट्टी और अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ख) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में निःक्षेपित या युक्तशेष अदरक और पौधे मूल के सभी विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण :

- (1) 15 मि. मी. 1 से छोटे प्रकंद के टुकड़ों को “गारबलड अविरंजित अदरक (टुकड़े)” से चिह्नंकित करके श्रेणीकृत किया जा सकेगा।
- (2) इन पर इनके उद्गम के स्थान के आधार पर “गारबलड अविरंजित कालीकट (एन. जी. के.)” या “गारबलड अविरंजित कोचीन (एन. जी. सी.)” चिह्नंकित किया जा सकेगा।

अनुसूची-18

(नियम 3 और 4 देखें)

अनगारबल्ल्ड अविरंजित अदरक (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	प्रकंद का आकार (मि. मि. में लंबाई)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	बहुत हल्के टुकड़े % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)
	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	20.0	1.5	0.5	4.0	12.0	8.0
मानक	15.0	1.5	0.5	6.0	13.0	8.0
शुष्क आधार पर (कैल्शियम आक्साइड के रूप में) कैल्शियम मात्रा % (एम/एम)		शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)		सामान्य अपेक्षाएं		
अधिकतम		न्यूनतम				
(8)		(9)		(10)		
विशेष	1.1	1.5		(1) यह जिजीबर आफिसीनेल रोज का शुष्कित प्रकंद, टुकड़ों में, टेडे मेड़े, आकार में, पीले भूरे रंग का होगा;		
मानक	1.1	1.0		(2) इसकी तंतु अंतर्वस्तु छिलने के किस्म के लक्षण की होगी जिसे पूरी तरह छिला नहीं जा सकेगा;		
				(3) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और इसमें फफूंदीगंध, विकृतगंधिता और तीखा स्वाद नहीं होगा;		
				(4) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;		
				(5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृतंक संदूषण से मुक्त होंगी;		
				(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।		

परिभाषाएं:—

- (क) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में धूल, पत्थर मिट्टी और अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ख) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में निःक्षेपित या युक्तशेष अदरक और पौधे मूल के सभी विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण :

- (1) 15 मि. मी. से छोटे प्रकंद के टुकड़ों को "गारबल्ल्ड अविरंजित अदरक (टुकड़े)" से चिह्नंकित करके श्रेणीकृत किया जा सकेगा।
- (2) इन पर इनके उद्गम के स्थान के आधार पर "गारबल्ल्ड अविरंजित कालीकट (एन. जी. के.)" या "अनगारबल्ल्ड अविरंजित (एन. यू. जी. सी.)" चिह्नंकित किया जा सकेगा।

अनुसूची-19

(नियम 3 और 4 देखें)

गारबल्ड विरंजित अदरक (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	प्रकंद का आकार (मि. मि. में लंबाई)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)
	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	20.0	1.5	0.5	12.0	12.0
मानक	15.0	1.5	0.5	13.0	12.0

शुष्क आधार पर (कैल्शियम आक्साइड के रूप में) कैल्शियम मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा% (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं
अधिकतम	न्यूनतम	
(7)	(8)	(9)
विशेष	2.5	1.5
मानक	4.0	1.0

(1) यह जिंजीबर आफिसीनेल रोज का शुष्कित प्रकंद, टुकड़ों में, टेडे मेड़े आकार में, पीले भूरे रंग का होगा;

(2) इसकी तंतु अंतर्वस्तु छिलने के किस्म के लक्षण की होगी जिसे पूरी तरह छिला नहीं जा सकेगा और इसे गारबल करके छोटे टुकड़ों में प्राप्त किया जा सकेगा;

(3) यह चूना विरंजित किया जाएगा;

(4) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और इसमें फफूंदीगंध, विकृतगंधिता और तीखा स्वाद नहीं होगा;

(5) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;

(6) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृतक संदूषण से मुक्त होंगी;

(7) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विपाक धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) “अकार्बनिक बाह्य पदार्थ” में धूल, पत्थर, मिट्टी और अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ख) “कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में निःक्षेपित या युक्तशेष अदरक और पौधे मूल के सभी विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण :

- (1) 15 मि. मी. 1 से छोटे प्रकंद के टुकड़ों को “गारबल्ड अविरंजित अदरक (टुकड़े)” से चिह्नंकित करके श्रेणीकृत किया जा सकेगा।
- (2) इन पर इनके उद्गम के स्थान के आधार पर “गारबल्ड अविरंजित कालीकट (बी. जी. के.)” या “गारबल्ड अविरंजित कोचीन (बी. जी. सी.)” चिह्नंकित किया जा सकेगा।

अनुसूची-20

(नियम 3 और 4 देखें)

अनगारबल्लड विरंजित अदरक (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	प्रकंद का आकार (मि. मि. में लंबाई)	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	बहुत हल्के टुकड़े % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)
	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	20.0	2.0	4.0	12.0	12.0
मानक	15.0	5.0	6.0	13.0	12.0

	शुष्क आधार पर (कैल्शियम आक्साइड के रूप में) कैल्शियम मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं
	अधिकतम	न्यूनतम	
	(7)	(8)	(9)
विशेष	2.5	1.5	(1) यह जिंजीबर आफिसीनेल रोज का शुष्कित प्रकंद, टुकड़ों में, टेड़े मेड़े आकार में, पीले भूरे रंग का होगा;
मानक	4.0	1.0	(2) इसकी तंतु अंतर्वस्तु छिलने के किस्म के लक्षण की होगी जिसे पूरी तरह छिला नहीं जा सकेगा; (3) यह चूना विरंजित किया जाएगा; (4) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और इसमें फफूंदीगंध, विकृतगंधिता और तीखा स्वाद नहीं होगा; (5) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा; (6) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी; (7) एफ्लाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

“कार्बनिक बाह्य पदार्थ” में निःक्षेपित या युक्तशेष अदरक सहित सभी विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण :

- (1) 15 मि. मी. से छोटे प्रकंद के टुकड़ों को “गारबल्लड अविरंजित अदरक (टुकड़े)” से चिह्नंकित करके श्रेणीकृत किया जा सकेगा।
- (2) इन पर इनके उद्गम के स्थान के आधार पर “अनगारबल्लड विरंजित कालीकट (बी. यू. जी. के.)” या “अनगारबल्लड विरंजित कोचीन (बी. यू. जी. सी.)” चिह्नंकित किया जा सकेगा।

अनुसूची-21

(नियम 3 और 4 देखें)

अदरक पाऊंडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान		क्वालिटी				
		विशेष अभिलक्षण				
आर्द्रता मात्रा: % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधु- लनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर जल में घुलन- शील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर (कैल्शियम आक्साइड के रूप में) कैल्शियम मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर एल्कोहल में घुलनशील निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	
अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	12.0	8.0	1.0	1.9	1.1	5.1
मानक	13.0	8.0	1.0	1.7	4.0	4.5

शुष्क आधार पर शीतल जल में घुलनशील निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं
अधिकतम	न्यूनतम	
(8)	(9)	(10)
विशेष	11.4	1.5
मानक	10.0	1.0

(1) यह अदरक (साबुत) या टुकड़ों को संदलीत करके प्राप्त किया गया उत्पाद होगा;

(2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि संपूर्ण उत्पाद 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके;

(3) इसका लाक्षणिक स्वाद होगा और इसमें फफूंदीगंध, विकृतगंधिता और तीखा स्वाद नहीं होगा;

(4) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;

(5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;

(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-22

(नियम 3 और 4 देखें)

जीरा (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	कीट क्षतिग्रस्त, विवर्णित, घुन लगे, अपरिपक्व बीज % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधुनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	0.8	0.2	3.0	9.0	8.0	1.5
मानक	4.0	1.0	5.0	12.0	9.5	1.5

शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	सामान्य अपेक्षाएं
न्यूनतम	न्यूनतम	
(8)	(9)	(10)
15.0	1.5	(1) यह कयूमिनम साइमिनम एल. का सूखा बीज होगा;
8.0	1.0	(2) इसका स्वाद लाक्षणिक, सौरभ होगा और फफूंदीदार नहीं;
		(3) यह मिलाया गया रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
		(4) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
		(5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "टूटे फल" में टूटे, कीट क्षतिग्रस्त, विवर्णित, कुम्हलाए और अपरिपक्व फल सम्मिलित हैं;
- (ख) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर मिट्टी, रेत के अंश सम्मिलित हैं;
- (ग) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में सभी बीज सम्मिलित हैं सिवाए जीरा फल और अनीमल मूल के अन्य सभी पदार्थों के।

टिप्पण : वाष्पशील तेल संदलण के तत्काल बाद अवधारित किया जाएगा।

अनुसूची-23

(नियम 3 और 4 देखें)

जीरा (पाऊंडर) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	9.0	8.0	1.5	12.0	1.5
मानक	12.0	9.5	1.5	8.0	1.0

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) जीरा पाऊंडर शुष्क जीरा (साबुत) को संदलीत करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि संपूर्ण उत्पाद 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके;
- (3) इसका स्वाद लाक्षणिक, सौरभ होगा और फफूंदीदार नहीं;
- (4) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ या किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;
- (5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमेटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-24

(नियम 3 और 4 देखें)

सौंफ (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	टूटे हुए, क्षतिग्रस्त बीज % (एम/एम)	अपरिपक्व, कुम्हलाए हुए, विवर्णित, काले बीज % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	1.0	0.2	1.0	2.0	10.0
मानक	4.0	0.5	4.0	6.0	12.0

शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल मात्रा % (मि. ली./100 ग्रा.)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)	सामान्य अपेक्षाएं
न्यूनतम	अधिकतम	
(7)	(8)	(9)
2.0	11.0	(1) सौंफ के दाने फोनीकुलम बुलगेर मिल के शुष्कित फल होंगे;
1.0	15.0	(2) इसमें लाक्षणिक गंध और मसाले की लाक्षणिक सौरभ, सुरुचिकारक गंध होगी;
		(3) यह फफूंदी और अन्य विजातीय स्वाद से मुक्त होगा;
		(4) यह मिलाये गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
		(5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
		(6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "टूटे, क्षतिग्रस्त फल" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो क्षतिग्रस्त, टूटे हुए या धुन या अन्य कीटों द्वारा खाए हुए या नुकसान पहुंचाए हुए हैं;
- (ख) "अपरिपक्व, कुम्हलाए हुए, विवर्णित दाने" से ऐसे दाने अभिप्रेत हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं या जो विवर्णित या काले हैं;
- (ग) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर, मिट्टी, रेत के अंश या अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (घ) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में भूसा या भ्रमिकावृत्त, तना, अन्य पौधों से बीज और कोई अन्य विजातीय बाह्य पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण : वाष्पशील तेल संदलन के तत्काल बाद अवधारित किया जाएगा।

अनुसूची-25

(नियम 3 और 4 देखें)

सौंफ (पाऊंडर) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अघुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर वाष्पशील तेल % (मि. ली./100 ग्रा.)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	10.0	9.0	1.5	1.5	11.0
मानक	12.0	9.0	2.0	1.0	15.0

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) सौंफ पाऊंडर शुष्क सौंफ (साबुत) को संदलीत करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिसमें कि संपूर्ण उत्पाद 800 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके;
- (3) इसका स्वाद लाक्षणिक, सौरभ होगा और फफूंदीदार नहीं;
- (4) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ या किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;
- (5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृत्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-26

(नियम 3 और 4 देखें)

मेथी (साबुत) का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	विशेष अभिलक्षण					
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ % (एम/एम)	क्षतिग्रस्त और कीट खाए बीज % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	0.5	0.2	0.5	10.0	5.0	1.5
मानक	2.0	0.5	1.0	10.0	7.0	2.0

शुष्क आधार पर शीतल जल निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)	सामान्य अपेक्षाएं
न्यूनतम	अधिकतम	
(8)	(9)	(10)
30.0	15.0	(1) मेथी (साबुत) त्रिगुनेला फौनम ग्रेकुम एल. को शुष्कित पके हुए दाने होंगे;
30.0	18.0	(2) यह फफूंदीदार, किसी बाहरी सुरुचिकारक या अन्य प्रकार के स्वाद गंध या सुरुचि से मुक्त होगा;
		(3) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
		(4) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृत्तक संदूषण से मुक्त होंगी;

(10)

- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "क्षतिग्रस्त और कीट खाए बीज" में ऐसे बीज सम्मिलित हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या घुन या अन्य कीटों द्वारा खाए हुए या नुकसान पहुंचाए हुए हैं;
- (ख) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर, मिट्टी, रेत के अंश या अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ग) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में भूसा या भ्रामिकावृत्त, तना, मेथी के सिवाए अन्य बीज और कोई अन्य विजातिय बाह्य पदार्थ सम्मिलित हैं।

टिप्पण : जब टुकड़ा मेथी बीजों को श्रेणीकृत किया जाएगा, 'टुकड़ा मेथी' शब्दों को लेबल पर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

अनुसूची-27

(नियम 3 और 4 देखें)

मेथी-पाऊंडर का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी				
	विशेष अभिलक्षण				
	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर कुल भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अम्ल में अधुलनशील भस्म मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर अपरिष्कृत फाइबर मात्रा % (एम/एम)	शुष्क आधार पर शीतल जल घुलनशील निष्कर्षण मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विशेष	10.0	5.0	1.5	15.0	30.0
मानक	10.0	7.0	2.0	18.0	30.0

सामान्य अपेक्षाएं

(7)

- (1) मेथी पाऊंडर त्रिगुनेला फौनम ग्रेकुम एल. के शुष्कित और पके हुए बीजों को संदलीत करके अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (2) यह इतना बारीक संदलीत किया जाएगा जिससे कि संपूर्ण उत्पाद 1000 माइक्रोन की छलनी से छाना जा सके;
- (3) यह किसी बाहरी सुरुचिकारक, फफूंदीदार और विकृतगंधिता से मुक्त होगा;
- (4) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ या किसी अन्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;
- (5) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृत्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (6) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमिटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

अनुसूची-28

(नियम 3 और 4 देखें)

अजवायन दाने का श्रेणी अभिधान और उसकी क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी			
	विशेष अभिलक्षण			
	कार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा % (एम/एम)	अकार्बनिक बाह्य पदार्थ मात्रा % (एम/एम)	क्षतिग्रस्त और खाद्य विजातीय बीज मात्रा % (एम/एम)	आर्द्रता मात्रा % (एम/एम)
	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विशेष	0.4	0.1	1.5	10.0
मानक	1.0	0.5	2.5	10.0
सामान्य अपेक्षाएं				
(6)				

- (1) अजवायन दाने अपीयम ग्रेवोलेंस के शुष्कित और पके हुए फल होंगे;
- (2) वे फफूंदी, जीवित कीटों और व्यवहारिक रूप से मृत कीटों, कीट अंश और कृन्तक संदूषण से मुक्त होंगी;
- (3) यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;
- (4) इसका स्वाद लाक्षणिक, सौरभ होगा और फफूंदीदार नहीं;
- (5) एफलाटाक्सिन, धात्विक संदूषण, कीटनाशी या नाशीजीव अवशेष, विषाक्त धातु, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न संदूषण सूक्ष्म भार आदि के संबंध में कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट या निर्यात के प्रयोजनों के लिए क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और घरेलू व्यापार के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के निबंधनों के अनुसार अनुपालन होगा।

परिभाषाएं :—

- (क) "अकार्बनिक बाह्य पदार्थ" में पत्थर मिट्टी, रेत के अंश या अन्य अकार्बनिक विजातीय पदार्थ सम्मिलित हैं;
- (ख) "कार्बनिक बाह्य पदार्थ" में भूसा या भ्रामिकावृत्त, तना, अन्य पौधों से बीज और कोई अन्य विजातीय बाह्य पदार्थ सम्मिलित हैं।
- (ग) "विजातीय खाद्य बीज" से अभिप्राय अजवायन दानों से भिन्न दाने हैं। (अपीम ग्रेवोलेंस)

अनुसूची-29

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)



वस्तु का नाम

श्रेणी

[फा. सं. 18011/8/2002-एम-II]

पी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)

(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 21st July, 2005

G.S.R. 257.—Whereas the draft of the Spices Grading and Marking Rules, 2004 were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, number G.S.R. 332, dated the 20th September, 2004, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty five days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 2nd October, 2004;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and in supersession of (1) the Chillies Grading and Marking Rules, 1962, (2) the Cardamom Grading and Marking Rules, 1962, (3) the Turmeric Grading and Marking Rules, 1964, (4) the Chillies power Grading and Marking Rules, 1964, (5) the Ginger Grading and Marking Rules, 1964, (6) the Fennel (whole and ground), Fenugreek (whole and ground) and Celery seeds Grading and Marking Rules, 1967, (7) the Pepper Grading and Marking Rules, 1969, (8) the Coriander Grading and Marking Rules, 1997, (9) the Cumin seeds Grading and Marking Rules, 1997 and (10) the Large Cardamom Grading and Marking Rules, 1998, except as respect things done or omitted to be done before such supersession; the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, application and commencement :—

- (1) These rules may be called Spices Grading and Marking Rules, 2005.
- (2) They shall apply to following spices (whole and powder), namely :—
 - (a) Turmeric (*Curcuma longa* L.)
 - (b) Chillies/Capsicums/Paprika (*Capsicum annum* L.)
 - (c) Pepper (*Piper nigrum*)
 - (d) Cardamom (*Elettaria cardamomum*)
 - (e) Large Cardamom (*Amomum subulatum* Rozburgh)
 - (f) Coriander (*Coriandrum sativum* L.)

- (g) Ginger (*Zingiber officinale*)
- (h) Cumin (*Cuminum cyminum* L.)
- (i) Fennel (*Foeniculum vulgare*)
- (j) Fenugreek (*Trigonella foenum graecum* L.)
- (k) Celery seed (*Apium graveolens* L.)

- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Agricultural Marketing Adviser” means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
- (b) “Authorised packer” means a person or a body of persons who has or have been granted a certificate of authorisation to grade and mark spices in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (c) “Certificate of Authorisation” means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Spices (whole and powder) with the grade designation mark;
- (d) “General Grading and Marking Rules” means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
- (e) “Grade designation mark” means the “Agmark Insignia” referred to in rule 5.
- (f) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.

3. Grade designations—

The Grade designations to indicate the quality of spices shall be as set out in column (I) of Schedules I to XXVIII.

4. Quality.—

For the purpose of these rules, the quality and general characteristics of spices (whole and powder) shall be as given against each grade designation in columns and schedules mentioned below :

Columns	Schedules
(2) to (6)	XXVIII
(2) to (7)	I, II, X, XXV and XXVII

- (2) to (8) IV, XI, XIV and XVI
 (2) to (9) VII, XIII, XVII, XIX, XX and XXIV
 (2) to (10) III, XV, XVIII, XXI, XXII and XXVI
 (2) to (11) VIII, IX and XII
 (2) to (12) V and VI

5. Grade designation mark.—

The grade designation mark shall consist of "AGMARK Insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule-XXIX.

6. Method of packing.—

(1) Spices (whole and powder) shall be packed in gunny bags/jute bags, poly woven bags, poly pouches, cloth bags or other suitable packages which shall be clean, sound, free from insects, fungal infestation and the packing material shall be as permitted under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 made under section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

(2) Suitable lining of food grade polypropylene/polyethylene/metallised shall be used for packing of Spices (whole and powder) in gunny bags/jute bags, poly woven bags, cloth bags, paper bags and cardboard cartons.

(3) Containers and packaging material shall be made of substances which are safe and suitable for their intended use. They should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(4) Spices (whole and powder) shall be packed in pack sizes as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(5) Each package shall contain Spices (whole and powder) of the same type and of the same grade designation.

(6) Graded material of small pack sizes of the same lot/batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(7) Each package shall be securely closed and sealed.

7. Method of Marking.—

(1) A grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with Rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988:

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package:—

- (a) Name and address of the packer;
- (b) Place of packing/manufacturing;
- (c) Date of packing;
- (d) Lot/batch number;
- (e) Grade;
- (f) Season of harvest (in case of chillies only);
- (g) Net weight;
- (h) Maximum retail Price;
- (i) Best before ——— month ——— year.

(3) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product;

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicating by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of certificate of authorisation.—

In addition to the conditions specified under the sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, the following shall be the special conditions of every certificate of authorisation issued for the purpose of these rules:—

(1) The authorised packer shall either set up his own laboratory or have access to an approved grading laboratory for testing of Spices (whole and powder);

(2) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement. The personnels engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases;

(3) The premises shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation;

(4) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Turmeric (whole)

Grade Designation	Quality				
	Special characteristics				
	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Inorganic extraneous matter % (m/m) Max.	Defective rhizomes % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Max.	Curcuminoid content % (m/m) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	0.8	0.2	3.0	12.0	2.0
Standard	1.5	0.5	5.0	12.0	Not specified

General characteristics

(7)

- (1) Turmeric shall be primary or secondary rhizomes commercially called bulbs or fingers respectively of the plant *Curcuma longa* L;
- (2) Rhizomes may be in natural state or polished;
- (3) They shall not be artificially coloured;
- (4) They shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (5) They shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;
- (6) Lead chromate test shall be negative.

Definitions :

- (a) "Defective rhizomes" means shrivelled rhizomes, internally damaged, hollow or porous rhizomes, rhizomes scorched by boiling and other types of damaged rhizomes;
- (b) "Inorganic extraneous matter" includes stones, particles of soil, dust, mud and the like;
- (c) "Organic extraneous matter" includes all vegetable matter other than rhizomes.

Note : When fingers are graded separately, it shall not contain more than—

- (1) 2% and 7% (m/m) of pieces of rhizomes (of length less than 15 mm and fragments) in special grade and standard grade respectively;
- (2) 2% and 5% (m/m) of bulbs in special grade and standard grade respectively.

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Turmeric (Powder)

Grade Designation	Quality				
	Special characteristics				
	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Acid insoluble ash % (m/m) Max.	Curcuminoid content % (m/m) Min.	Starch % (m/m) Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	10	7.0	1.5	2.0	60
Standard	12	9.0	1.5	Not specified	60

General Characteristics

(7)

- (1) Turmeric powder shall be prepared by grinding clean, dry Turmeric (*Curcuma longa* L) rhizomes.
- (2) It shall be ground to such a fineness that 98% of the product passes through a 300 micron sieve. It shall be labelled 'Coarse Ground' when 98% of the product passes through 800 micron sieve.
- (3) It shall have its characteristic taste, flavour and free from musty odour.
- (4) It shall be free from any colouring matter foreign starch and any other adulterant.
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination.
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants; Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;
- (7) Lead chromate test shall be negative.

SCHEDULE III

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Chillies/Capsicums/Paprika

Grade Designation	Quality				
	Special Characteristics				
	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Inorganic extraneous matter % (m/m) Max.	Unripe and marked fruits % (m/m) Max.	Broken fruits and fragments % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Mix.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	0.8	0.2	2.0	5.0	10.0
Standard	4.0	1.0	5.0	15.0	12.0

Total ash % (m/m) Max.	Acid insoluble ash % (m/m) Max.	Capsaicinoid content % (Min./m)	General Characteristics	
(7)	(8)	(9)	(10)	
7.0	1.25	0.3	(1)	Chillies/Capsicums/Paprika are dried pods (fruits) with stalk of plants of genus <i>Capsicum</i> ;
8.0	1.25	Not specified	(2)	It shall have a characteristic strong odour;
			(3)	It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments, rodent contamination, extraneous colouring matter, coating of mineral oil and other harmful substances;
			(4)	It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants; Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;
Definitions:				
(a) "Broken fruits" means—fruits which are broken during handling;				

(10)

- (b) "Fragments" means—small pieces of fruits coming from broken fruits;
- (c) "Inorganic extraneous matter" means—includes stones, particles of soil/sand;
- (d) "Marked fruits, means—black or black stained fruits;
- (e) "Organic extraneous matter" means—includes stalks, leaves and calyx pieces;
- (f) "Unripe fruits" means—fruits not yet fully mature, the colour of which is different from that of the batch under consideration.

Note : (1) Capsicum shall have a length of minimum 25 mm.

(2) For special grade capsaicinoid content shall be declared on the label.

SCHEDULE IV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of ground (powdered) fragmented Chillies/Capsicums/Paprika

Grade Designation	Quality					
	Special Characteristics					
	Moisture % (m/m)	Total ash % (m/m)	Acid insoluble ash % (m/m)	Crude fibre % (m/m)	Non-volatile Ether extract % (m/m)	Capsaicinoid content % (m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	10.0	7.0	1.25	30.0	12.0	0.3
Standard	11.0	8.0	1.30	30.0	12.0	Not specified

General Characteristics

(8)

- (1) Ground chillies/capsicums/Paprika are the products obtained by grinding clean, dried, ripened fruits of whole chillies/capsicums/Paprika respectively. It can also be a mixture of Chillies, Capsicums and Paprika;
- (2) It shall be without any added colouring matter flavouring matter;
- (3) It shall also be free from any extraneous or undesirable odour or flavour;
- (4) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments, dirt and rodent contamination;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants; Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;

Note : (1) For special grade, capsaicinoid content shall be declared on the label.

(2) In standard grade, chillies powder may contain any edible vegetable oil to a maximum limit of 2 per cent by mass under a label declaration for the amount and nature of vegetable oil used.

SCHEDULE V

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Processed Black Pepper (Whole)

Grade Designation	Quality									
	Special Characteristics									
	Organic extraneous matter % (m/m)	Inorganic extraneous matter % (m/m)	Light berries % (m/m)	Pinheads & broken berries % (m/m)	Bulk density g/l	Moisture % (m/m)	Total ash % (m/m)	Non-volatile ether extract % (m/m)	Volatile oil % (ml/100gm)	Piperine content % (m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Min.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	0.8	0.2	5.0	4.0	490	11.0	6.0	6.0	2.5	4.0
Standard	1.2	0.3	10.0	4.0	470	12.0	7.0	5.5	2.0	2.0

General Characteristics

(12)

- (1) Black pepper shall be dried mature berries of *Piper nigrum* L. having an unbroken pericarp, brown to black in colour with wrinkled surface;
- (2) It shall be cleaned;
- (3) It shall be free from mould growth and living insects, and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (4) It shall be free from added colouring matter and coating of mineral oil;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codes Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;

Definitions:

- (a) "Broken berries" means—berry that has been separated into two or more pieces;
- (b) "Inorganic extraneous matter" means—includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter;
- (c) "Light berries" means—berry that has reached an apparently normal stage of development but the kernel does not exist;
- (d) "Organic extraneous matter" means—all materials other than black pepper berries, irrespective of whether they are of vegetable origin;
- (e) "Pinhead" means—berry of very small size that has not developed;
- (f) "Processed black pepper" means—pepper that has been cleaned.

Note:

- (1) Volatile oil content should be determined immediately after grinding.
- (2) It may be marked 'Malabar'. It shall have bulk density of 550 gm/litre (Min.). It may also be marked TGER (Tellicherry Garbled Extra Bold) or TGSEB (Tellicherry Garbled Special Extra Bold) depending upon size of the berries. The berries shall be retained on sieve having bores of diameter 4.25 mm and 4.75 mm for TGER and TGSEB respectively. Both shall have bulk density of 530 gm/litre (Min) for Special Grade and 500 gm/litre (Min) for Standard grade.

SCHEDULE VI

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Non-Processed or Semi-Processed Black Pepper (Whole)

Grade Designation	Quality									
	Special Characteristics									
	Organic extraneous matter % (m/m)	Inorganic extraneous matter % (m/m)	Light berries % (m/m)	Pinheads & broken berries % (m/m)	Bulk density g/l	Moisture % (m/m)	Total ash % (m/m)	Non-volatile ether % (m/m)	Volatile oil % (ml/100gm)	Piparine content % (m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Max.	Max.	Min.	Min.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Special	0.8	0.2	10	5	450	12.0	7.0	6.0	2.0	4.0
Standard	1.5	0.5	15	5	430	13.0	8.0	5.5	1.5	2.0
General Characteristics										
(12)										
(1) Black pepper shall be dried mature berries of <i>Piper nigrum</i> L, having an unbroken pericarp brown to black in colour with wrinkled surface. (2) It shall be uncleaned or partially cleaned. (3) It shall be free from mould growth and living insects, and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination. (4) It shall be free from coating of mineral oil and added colouring matter. (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants; Insecticide/ Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.										

Definitions :

- "Broken berries" means—berry that has been separated into two or more pieces.
- "Inorganic extraneous matter" means—includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter.
- "Light berries" means—berry that has reached an apparently normal stage of development but the kernel does not exist.
- "Non-processed pepper" means—pepper that has not undergone any cleaning.
- "Organic extraneous matter" means—all materials other than black pepper berries which are of vegetable origin.
- "Pinhead" means—berry of very small size that has not developed.
- "Semi-processed pepper" means—pepper that has undergone partial cleaning.

Note :

- Non-Processed or Semi-Processed Whole Black Pepper is not meant for direct human consumption.
- Volatile oil content should be determined immediately after grinding.
- It may be marked 'Malabar'. It shall have bulk density of 550 gm/litre (Min.). It may also be marked TGEb (Tellichery Garbled Extra Bold) or TGSEb (Tellichery Garbled Special Extra Bold) depending upon size of the berries. The berries shall be retained on sieve having bores of diameter 4.25 mm and 4.75 mm for TGEb and TGSEb respectively. Both shall have bulk density of 530 gm/litre (Min) for Special Grade and 500 gm/litre (Min) for Standard grade.

SCHEDULE VII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Black Pepper Powder

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Moisture %(m/m)	Total ash %(m/m)	Acid insoluble ash %(m/m)	Crude fibre %(m/m)	Non- volatile ether extract %(m/m)	Volatile oil %(m/1/ 100gm)	Piperine content %(m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Min.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	11.0	6.0	1.2	17.5	6.0	1.5	4.0
Standard	12.0	8.0	1.2	18.0	5.5	1.0	2.0

General Characteristics

(9)

- (1) It shall be obtained by grinding Black Pepper berries.
- (2) It shall be ground to such a fineness that the whole of it passes through a 500 micron sieve. It can be ground to such a fineness that whole of it passes through 1000 micron sieve. In such case, the product should be labelled 'Coarse Powder'.
- (3) It shall have odour characteristic of black pepper and shall be free from foreign odour and flavour.
- (4) It shall be free from any foreign matter, mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination.
- (5) It shall be free from added colouring matter.
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE VIII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Cardamom Whole Capsules

Grade Designation	Quality								
	Special Characteristics								
	Organic extrane- ous matter %(m/m)	Inorganic extrane- ous matter %(m/m)	Empty and malformed capsules per cent by count	Immature and shrivelled capsules %(m/m)	Blacks and splits per cent by count	Mass in g/l	Moisture %(m/m)	Total ash %(m/m)	Volatile oil %(m/1/ 100 gm)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Max.	Max.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	1.0	0.5	2.0	2.0	Nil	435	11.0	8.0	3.5
Standard	2.0	1.0	5.0	5.0	10.0	385	12.0	9.5	3.0

General Characteristics

(11)

- (1) Cardamom capsules shall be dried, nearly ripened fruits of *Elettaria cardamom* (L.);
- (2) Capsules shall be oblong in shape with a rounded part or three cornered and having ribbed appearance;
- (3) Capsules shall be well formed and contain sound seeds;
- (4) Capsules shall have characteristic odour and shall be free from foreign odours or flavours, including those of rancidity and mustiness;
- (5) Colour of the capsules may be (a) Light Green, (b) Green, (c) Deep Green or (d) Pale Brownish. Capsules shall be packed according to the colour group and it shall be indicated on the label. At least 95% of the capsules shall correspond to the respective colour group;
- (6) In addition to grade, Cardamom may be marked as described below. This marking shall be done only when the product is produced only in the particular area :
 - (a) Alleppey Green Extra Bold (AGEB) when retained on sieve having holes of diameter 7.0 mm;
 - (b) Corg Green Extra Bold (CGEB) when retained on sieve having holes of diameter 8.0 mm;
 - (c) Alleppey Green Bold (AGB) when retained on sieve having holes of diameter 6.0 mm;
 - (d) Corg Green Bold (CGB) when retained on sieve having holes of diameter 7.5 mm;
 - (e) Alleppey Green Superior (AGS) when retained on sieve having holes of diameter 5.0 mm;
 - (f) Corg Green Superior (CGS) when retained on sieve having holes of diameter 6.0 mm;
- (7) Capsules shall be free from added colouring matter;
- (8) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (9) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants; Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;

Definitions :

- (a) "Blacks" includes capsules which are blackish to black in colour;
- (b) "Empty and Malformed capsules" means capsules which have no seeds or are scantily filled with seeds;
- (c) "Immature and Shrivelled capsules" means capsules which are not fully developed;
- (d) "Inorganic extraneous matter" includes stones, dust, earth or any other inorganic foreign matter;
- (e) "Organic extraneous matter" includes pieces of Calyx, stalk and foreign matter of plant origin;
- (f) "Splits" includes capsules which are open at corners for more than half the length.

Note : Volatile oil content shall be determined on seeds obtained from the capsules.

SCHEDULE IX

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Bleached or Half Bleached Cardamom Whole Capsules

Grade Designation	Quality								
	Special Characteristics								
	Organic extraneous matter % (m/m)	Inorganic extraneous matter % (m/m)	Empty and malformed capsules % (m/m)	Immature and shrivelled capsules % (m/m)	Size (Diameter of holes in mm. in the sieve on which retained)	Mass in g/L	Moisture % (m/m)	Total ash %	Volatile oil % (ml/100 gm)
	Max.	Max.	Max.	Max.		Min.	Max.	Max.	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	1.0	0.5	Nil	Nil	8.5	360	11.0	8.0	3.5
Standard	2.0	1.0	Nil	Nil	5.0	300	12.0	9.5	3.0

General Characteristics

(11)

- (1) Cardamom capsules shall be fully developed dried fruits of *Elettaria cardamom* (L.);
- (2) Capsules shall be oblong in shape with a rounded part or three cornered with skin ribbed or smooth;
- (3) Capsules shall be bleached and/or half bleached by Sulphur Dioxide and colour shall range from pale cream to white;
- (4) Capsules shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;

Definitions :

- (a) "Empty and Malformed capsules" means capsules which have no seeds or are scantily filled with seeds;
- (b) "Immature and Shrivelled capsules" means capsules which are not fully developed;
- (c) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter;
- (d) "Organic extraneous matter" includes exhausted or spent Ginger and all foreign matter of plant origin;

Note : Volatile oil content shall be determined on seeds obtained from the capsules.

SCHEDULE X

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Cardamom Seeds Powder

Grade Designation	Quality				
	Special Characteristics				
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Volatile oil %(ml/100gm) Min.	Crude fibre %(m/m) Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	11.0	7.0	2.5	3.5	10
Standard	13.0	8.0	3.0	3.0	12

General Characteristics

(7)

- (1) It shall be obtained by grinding the dried seeds of any variety of *Elettaria cardamom* (L.);
- (2) It shall have characteristic taste and flavour and free from foreign odour, rancidity and mustiness;
- (3) It shall be free from any adulterant and added colouring matter;
- (4) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XI

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definitions of quality of Cardamom Seeds

Grade Designation	Quality					
	Special Characteristics					
	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Light seeds % (m/m) Max.	Mass in g/1 Min.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Volatile oil % (ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	0.5	2.0	675	11.0	7.0	3.5
Standard	1.5	5.0	625	13.0	8.0	3.0

General Characteristics

(8)

- (1) It shall be Seeds obtained by separating the seeds from the capsules of *Elettaria cardamom* (L.);
- (2) Cardamom seeds shall have characteristic odour and shall be free from foreign odour of flavour, including those of rancidity and mustiness;
- (3) Cardamom seeds shall be free from inorganic extraneous matter and added colouring matter;
- (4) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions —

- (a) "Light Seeds" includes seeds brown or red in colour and immature and shrivelled seeds;
- (b) "Organic Extraneous matter" includes calyx pieces, stalk bits and any other foreign matter of plant origin,

SCHEDULE XII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Large Cardamom Capsules

Grade Designation	Quality								
	Special Characteristics								
	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Inorganic extraneous matter % (m/m) Max.	Immature shrivelled and insect damaged capsules % (m/m) Max.	Empty and malformed capsules % (m/m) Max.	Mass in g/1 Min.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Acid insoluble ash % (m/m) Max.	Volatile oil % (ml/100 gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	0.8	0.2	3.0	5.0	350	12.0	8.0	2.0	2.0
Standard	4.0	1.0	5.0	8.0	300	12.0	8.0	2.0	1.0

General Characteristics

(11)

- (1) It shall be dried, nearly ripe to ripe fruits of *Amomum subulatum* Roxb.;
- (2) Capsules shall be ovoid and more or less triangular shaped with a ribbed appearance;
- (3) It shall have characteristic taste and flavour and free from foreign odour, rancidity and mustiness;

(11)

- (4) It shall be free from visible dirt or dust;
- (5) It shall be free from added colouring matter;
- (6) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (7) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade;

Definitions :

- (a) "Empty and malformed capsules" means capsules which are without seeds or scantily filled with seeds;
- (b) "Immature Shrivelled and insect damaged capsules" means capsules which are not fully developed or damaged by insects;
- (c) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter;
- (d) "Organic extraneous matter" includes calyx, stalk and other organic matter of plant origin;

Note : The determination of Volatile oil shall be made immediately after grinding the seeds obtained by separating the skin.

SCHEDULE XIII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Large Cardamom Seeds

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Light seeds brown/red seeds % (m/m) Max.	insect Damaged seeds % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Acid insoluble ash % (m/m) (m/m)	Volatile Oil % (ml/100gm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	0.5	5.0	Nil	12.0	8.0	2.0	2.0
Standard	1.0	5.0	3.0	12.0	8.0	2.0	1.0

General Characteristics

(9)

- (1) It shall be obtained by decorticating the capsules of *Amomum subulatum* Roxb.;
- (2) It shall have characteristic taste and flavour and free from foreign odour, rancidity and mustiness;
- (3) It shall be free from visible dirt or dust;
- (4) It shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, poisonous metal, naturally occurring contaminants, microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Light seeds" include seeds which are brown or red in colour, broken, immature and shrivelled;
- (b) "Organic Extraneous matter" includes galyx, stalk, skin of capsules or other organic matter of plant, origin.

Note : Volatile Oil shall be determined immediately after grinding.

SCHEDULE XIV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Large Cardamom Seed Powder

Grade Designation	Quality					
	Special Characteristics					
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Crude fibre %(m/m) Max.	Non-Volatile ether extract %(m/m) Min.	Volatile Oil %(m/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	10.0	8.0	2.0	12.0	4.0	1.5
Standard	12.0	8.0	3.0	15.0	2.0	1.0

General Characteristics

(8)

- (1) It shall be obtained by grinding seeds separated from capsules of *Amomum subulatum* Roxb.;
- (2) It shall have characteristic taste and flavour and free from foreign odour, rancidity and mustiness;
- (3) It shall be ground to such a fineness that it shall pass completely through a 1000 micron sieve;
- (4) It shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, poisonous metals, naturally occurring contaminants, microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Coriander (whole)

Grade Designation	Quality							
	Special Characteristics							
	Organic extraneous matter %(m/m) Max.	Inorganic extraneous matter %(m/m) Max.	Split fruits %(m/m) Max.	Damaged discoloured, shrivelled, insect bored fruits %(m/m) Max.	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Volatile Oil %(m/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	0.8	0.2	5.0	2.0	9.0	7.0	1.0	0.2
Standard	3.5	0.5	30.0	5.0	10.0	7.0	1.5	0.1

General Characteristics

(10)

- (1) Corriander (Whole) shall be dried mature fruit of *Coriandrum sativum* L.
- (2) It shall not contain any added colouring matter, or preservatives.
- (3) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination.
- (4) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxina, Metallic Contaminants, Insecticide/Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Damaged, discoloured, shrivelled, insect bored fruits" includes whole or split fruits that are damaged, discoloured or shrivelled and fruits showing signs of partial or whole bores as a result of their having been eaten by weevils or other insects;
- (b) "Inorganic extraneous matter" includes stones, particules of soil and sand;
- (c) "Organic extraneous matter" means all organic material other than Corriander seeds and includes all matter of vegetable origin;
- (d) "Split fruits" includes fruits which have been split longitudinally into two parts.

Note : The volatile oil content should be determined immediately after grinding.

SCHEDULE XVI

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Coriander Powder

Grade Designation	Quality					
	Special Characteristics					
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble %(m/m) Max.	Crude fibre %(m/m) Max.	Non-Volatile ether extract %(m/m) Min.	Volatile Oil %(ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	9.0	6.5	1.0	25.0	15.0	0.10
Standard	10.0	7.0	1.5	28.0	12.0	0.05

General Characteristics

(8)

- (1) Corriander Powder shall be obtained by grinding clean, sound, dried and mature fruits of *Coriandrum sativum* L.
- (2) It shall be ground to such a fineness that it shall pass completely through a 500 micron sieve. However, for standard grade, 95% of it should pass through 1000 micron sieve.
- (3) It shall have a typical aroma and flavour characteristic of the spice and shall be free from musty odour.
- (4) It shall not contain any added colouring matter, preservatives or any foreign matter.
- (5) It shall be free from living insects and practically free from moulds, dead insects, insect fragments and rodent contamination.
- (4) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxina, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load etc. as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XVII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Garbled Non-bleached Ginger (Whole)

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Size of rhizomes (length in mm) Min.	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Inorganic extraneous matter % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Calcium (as calcium oxide) % (m/m) Max.	Volatile Oil % (ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	20.0	1.5	0.5	12.0	8.0	1.1	1.5
Standard	15.0	1.5	0.5	13.0	8.0	1.1	1.0

General Characteristics

(9)

- (1) It shall be dried rhizomes of *Zingiber officinale* Rose, in pieces, irregular in shape, pale brown in colour;
- (2) Its fibrous content shall be characteristic of the variety with peel not entirely removed and light pieces removed by garbling;
- (3) It shall have characteristic taste and flavour and shall not have a musty odour or a rancid or bitter taste;
- (4) It shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter.
- (b) "Organic extraneous matter" includes exhausted or spent Ginger and all foreign matter of plant origin.

Note :

- (1) Pieces of rhizomes smaller than 15mm can be garbled with the marking "Garbled Non-bleached Ginger (Pieces)".
- (2) It may be marked "Garbled Non-bleached Calicut" (NGK) or "Garbled Non-bleached Cochin (NGC)" depending upon its place of origin.

SCHEDULE XVIII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Ungarbled Non-bleached Ginger (Whole)

Grade Designation	Quality							
	Special Characteristics							
	Size of rhizomes (length in m/m) Min.	Organic extraneous matter % (m/m) Max.	Inorganic extraneous matter % (m/m) Max.	Very Light, pieces % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Calcium (as calcium oxide) % (m/m) Max.	Volatile Oil % (ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	20.0	1.5	0.5	4.0	12.0	8.0	1.1	1.5
Standard	15.0	1.5	0.5	6.0	13.0	8.0	1.1	1.0

General Characteristics

(10)

- (1) It shall be dried rhizomes of *Zingiber officinale* Rose, in pieces, irregular in shape, pale brown in colour;
- (2) Its fibrous content shall be characteristic of the variety with peel not entirely removed;
- (3) It shall have characteristic taste and flavour and shall not have a musty odour or a rancid or bitter taste;
- (4) It shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter.
- (b) "Organic extraneous matter" includes exhausted or spent Ginger and all foreign matter of plant origin.

Note :

- (1) Pieces of rhizomes smaller than 15mm can be graded with the marking "Ungraded Non-bleached Ginger (Pieces)".
- (2) It may be marked "Ungraded Non-bleached Calicut" (NUGK) or "Ungraded Non-bleached (NUGC)" depending upon its place of origin.

SCHEDULE XIX

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Garbled bleached Ginger (Whole)

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Size of rhizomes (length in mm) Min.	Organic extraneous matter %(m/m) Max	Inorganic extraneous matter %(m/m) Max.	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Calcium (as calcium oxide) %(m/m) Max.	Volatile Oil %(ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	20.0	1.5	0.5	12.0	12.0	2.5	1.5
Standard	15.0	1.5	0.5	13.0	12.0	4.0	1.0

General Characteristics

(9)

- (1) It shall be dried rhizomes of *Zingiber officinale* Rose, in pieces, irregular in shape, pale brown in colour;
- (2) Its fibrous content shall be characteristic of the variety with peel not entirely removed and light pieces removed by grading;
- (3) It shall be lime bleached;
- (4) It shall have characteristic taste and flavour and shall not have a musty odour or a rancid or bitter taste;
- (5) It shall be free from added colouring matter;
- (6) It shall be free from mould growth and living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (7) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other ~~inorganic~~ foreign matter;
- (b) "Organic extraneous matter" includes exhausted or spent Ginger and all foreign matter of plant origin.

Note :

- (1) Pieces of rhizomes smaller than 15mm can be graded with the marking "Garbled Bleached Ginger (Pieces)".
- (2) It may be marked "Garbled Bleached Calicut" (BGK) or "Garbled bleached Cochin (BGC)" depending upon its place of origin.

SCHEDULE XX

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of ~~Un~~garbled bleached Ginger (Whole)

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Size of rhizomes (length in mm) Min.	Extraneous Matter % (m/m) Max.	Very light pieces % (m/m) Max.	Moisture % (m/m) Max.	Total ash % (m/m) Max.	Calcium (as calcium oxide) (m/m) Max.	Volatile Oil % (ml/100gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	20.0	2.0	4.0	12.0	12.0	2.5	1.5
Standard	15.0	2.0	6.0	13.0	12.0	4.0	1.0

General Characteristics

(9)

- (1) It shall be dried rhizomes of *Zingiber officinale* Rose, in pieces, irregular in shape, pale brown in colour;
- (2) Its fibrous content shall be characteristic of the variety with peel not entirely removed;
- (3) It shall be lime bleached;
- (4) It shall have characteristic taste and flavour and shall not have a musty odour or a rancid or bitter taste;
- (5) It shall be free from added colouring matter;
- (6) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (7) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the as specified by the Codes Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definition :

"Extraneous matter" includes all foreign matter including the exhausted or spent Ginger.

- Note :** (1) Pieces of rhizomes smaller than 15mm can be graded with the marking "Garbled bleached Ginger (Pieces)".
- (2) It may be marked "Ungarbled bleached Calicut" (BUGK) or "Ungarbled bleached Cochin (BUGC)" depending upon its place of origin.

SCHEDULE XXI

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Ginger Powder

Grade Designation	Quality							
	Special Characteristics							
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Water soluble ash %(m/m) Min.	Calcium (as calcium oxide) %(m/m) Max.	Alcohol soluble extract %(m/m) Min.	Cold water soluble extract %(m/m) Min.	Volatile Oil %(ml/ 100 gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	12.0	8.0	1.0	1.9	1.1	5.1	11.4	1.5
Standard	13.0	8.0	1.0	1.7	4.0	4.5	10.0	1.0

General Characteristics

(10)

- (1) It shall be the product obtained by grinding Ginger (Whole) or pieces;
- (2) It shall be grounded to such a fineness that whole of it passes through 1000 micron sieve;
- (3) It shall have characteristic taste and flavour and shall not have a musty odour or a rancid or bitter taste;
- (4) It shall be free from added colouring matter;
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XXII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Cumin (Whole)

Grade Designation	Quality							
	Special Characteristics							
	Organic extraneous matter %(m/m) Max.	Inorganic extraneous matter %(m/m) Max.	Insect damaged, discoloured, weevilled, immature seeds %(m/m) Max.	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Non-volatile ether extract %(m/m) Min.	Volatile Oil %(ml/ 100 gm) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	1.0	0.2	3.0	9.0	8.0	1.5	15.0	1.5
Standard	4.0	1.0	5.0	12.0	9.5	1.5	8.0	1.0

General Characteristics

(10)

- (1) It shall be dried seeds of *Cuminum cyminum* L;
- (2) Its flavour shall be characteristic, aromatic and not musty;
- (3) It shall be free from added colouring matter;
- (4) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Insect Damaged, discoloured, weevilled, immature seeds" includes broken, insect damaged, discoloured, shrivelled and immature fruits.
- (b) "Inorganic extraneous matter" includes stones, particles of soil, sand etc.
- (c) "Organic extraneous matter" includes all seeds other than Cumin fruits and all other matter of animal origin.

Note :—The Volatile Oil Content should be determined immediately after grinding.

SCHEDULE XXIII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Cumin Powder

Grade Designation	Quality				
	Special Characteristics				
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Min.	Non-Volatile Oil either extract %(m/m) Min.	Volatile Oil %(m1/100gm.) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	9.0	8.0	1.5	15.0	1.5
Standard	12.0	9.5	1.5	8.0	1.0

General Characteristics

(7)

- (1) Cumin Powder shall be obtained by grinding dried Cumin (Whole) ;
- (2) It shall be ground to such a fineness that it shall pass completely through a 1000 micron sieve;
- (3) Its flavour shall be characteristic, aromatic and not musty;
- (4) It shall be free from added colouring matter or any other foreign matter;
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE-XXIV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Fennel (Whole)

Grade Designation	Quality						
	Special Characteristics						
	Organic extraneous matter %(m/m)	Inorganic extraneous matter %(m/m)	Broken, damaged seeds %(m/m)	Immature, shrivelled, discoloured, blackened seeds %(m/m)	Moisture %(m/m)	Volatile Oil %(ml/ 100 gm.)	Crude fibre %(m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.	Max.	Min.	Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Special	1.0	0.2	1.0	2.0	10.0	2.0	11.0
Standard	4.0	0.5	4.0	6.0	12.0	1.0	15.0

General Characteristics

(9)

- (1) Fennel seeds shall be dried fruits of *Foeniculum vulgare* Mill.
- (2) It shall have a characteristic odour and a pleasant aromatic flavour characteristic of the spice.
- (3) It shall be free from mustiness and other foreign flavour.
- (4) It shall be free from added colouring matter.
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination.
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Broken, damaged seeds" means seeds which are damaged, broken or which have been bored or attacked by weevils or other insects;
- (b) "Immature, shrivelled, discoloured seeds" means seeds which have not developed properly or which have been discoloured or blackened;
- (c) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter;
- (d) "Organic extraneous matter" includes straw or chaff, stalks, stems, seeds from other plants and any other organic foreign matter.

Note :—The volatile oil content shall be determined immediately after grinding.

SCHEDULE XXV

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Fennel Powder

Grade Designation	Quality				
	Special Characteristics				
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Volatile Oil % (ml/100 gm) Min.	Crude fibre %(m/m) Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	10.0	9.0	1.5	1.5	11.0
Standard	12.0	9.0	2.0	1.0	15.0

General Characteristics

(7)

- (1) Fennel Powder shall be obtained by grinding dried Fennel (Whole);
- (2) It shall be ground to such a fineness that it shall pass completely through a 800 micron sieve;
- (3) Its flavour shall be characteristic, aromatic and not musty;
- (4) It shall be free from added colouring matter or any other foreign matter;
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XXVI

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Fenugreek (Whole)

Grade Designation	Quality							
	Special Characteristics							
	Organic extraneous matter %(m/m) Max.	Inorganic extraneous matter %(m/m) Max.	Damaged and insect bored seeds %(m/m) Max.	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Cold water soluble extract %(m/m) Min.	Crude fibre %(m/m) Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Special	0.5	0.2	0.5	10.0	5.0	1.5	30.0	15.0
Standard	2.0	0.5	1.0	10.0	7.0	2.0	30.0	18.0

General Characteristics

(10)

- (1) Fenugreek (Whole) shall be dried mature seeds of *Trigonella foenum graecum* L;
- (2) It shall be free from mustiness, any off-flavours or other typical taste, odour or flavour;
- (3) It shall be free from added colouring matter;

(10)

- (4) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Damaged and insect bored seeds" includes all seeds which are damaged or which have been bored or attacked by weevils or other insects;
- (b) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter;
- (c) "Organic extraneous matter" includes straw or chaff, stalks, stems, seeds other than Fenugreek and other organic foreign matter.

Note : When fragmented Fenugreek seeds are graded, the words 'Fragmented Fenugreek' shall be clearly marked on the label.

SCHEDULE XXVII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Fenugreek Powder

Grade Designation	Quality				
	Special Characteristics				
	Moisture %(m/m) Max.	Total ash %(m/m) Max.	Acid insoluble ash %(m/m) Max.	Crude fibre % (m/m) Max.	Cold water soluble extract %(m/m) Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Special	10.0	5.0	1.5	15.0	30.0
Standard	10.0	7.0	2.0	18.0	30.0
General Characteristics					
(7)					

- (1) Fenugreek Powder shall be obtained by grinding dried and ripened seeds of *Trigonella foenum graecum* L.;
- (2) It shall be ground to such a fineness that it shall pass completely through a 1000 micron sieve;
- (3) It shall be free from off-flavours, mustiness and rancidity;
- (4) It shall be free from added colouring matter or any other foreign matter;
- (5) It shall be free from mould growth, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (6) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

SCHEDULE XXVIII

(See rules 3 and 4)

Grade designations and quality of Celery Seeds

Grade Designation	Quality			
	Special Characteristics			
	Organic extraneous matter % (m/m)	Inorganic extraneous matter % (m/m)	Damaged and edible foreign seeds % (m/m)	Moisture % (m/m)
	Max.	Max.	Max.	Max.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Special	0.4	0.1	1.5	10.0
Standard	1.0	0.5	2.5	10.0

General Characteristics

(6)

- (1) Celery seeds shall be dried and matured fruits of *Apium graveolens*;
- (2) It shall be free from visible moulds, living insects and practically free from dead insects, insect fragments and rodent contamination;
- (3) It shall be free from any added colouring matter;
- (4) Its flavour shall be characteristics, aromatic and not musty;
- (5) It shall comply with restrictions in regard to Aflatoxins, Metallic Contaminants, Insecticide or Pesticide residue, Poisonous metals, naturally occurring Contaminants, Microbial load and the like as specified by the Codex Alimentarius Commission or as per buyers requirements for Export purposes and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 for domestic trade.

Definitions :

- (a) "Inorganic extraneous matter" includes dust, stones, earth or any other inorganic foreign matter.
- (b) "Organic extraneous matter" includes straw or chaff, stalks, stems, seeds from other plants and any other organic foreign matter.
- (c) "Edible foreign seeds" means seeds other than Celery seeds (*Apium graveolens* L.).

SCHEDULE XXIX

(See rule 5)

(Design of Agmark Insignia)



[F. No. 18011/8/2002-M-II]

P. K. AGARWAL, Jt. Secy. (Agricultural Marketing)